



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



# PATRIOTIC IAS

## THE HINDU NEWSPAPER

### DAILY CURRENT AFFAIRS

#### JUNE 2025

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

13\_06\_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED (GS Paper I: History, Society and Geography)

1. India marks a relative decline in gender parity, ranks 131 worldwide

भारत में लिंग समानता में अपेक्षाकृत गिरावट दर्ज, वैश्विक रैंकिंग में 131वां स्थान

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)

Contact Number : **9971932488**

Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



**2. All you need is love: Why Rumi lives inside everyone in times of gloom**

आपको केवल प्रेम की ज़रूरत है: अंधकार के समय में रूमी हर किसी के भीतर क्यों बसते हैं

**3. Israel's Starvation of Gaza Called a War Crime by Sweden**

स्वीडन द्वारा गाज़ा में भुखमरी को युद्ध अपराध करार दिया गया

**4. Sudan's RSF Claims Control of Border with Libya and Egypt**

सूडान की RSF ने लीबिया और मिस्र की सीमा पर नियंत्रण का दावा किया

PATRIOTIC IAS



# India marks a relative decline in gender parity, ranks 131 worldwide

GS Paper I: Society

**Press Trust of India**  
NEW DELHI

The World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2025 has ranked India at 131 out of 148 countries, with a parity score of just 64.1%. The report released on Thursday puts India among the lowest-ranked countries in South Asia. India had ranked 129 out of 146 countries last year.

The report said that while the global gender gap has closed to 68.8%, marking the strongest annual advancement since the COVID-19 pandemic, full parity remains 123 years away at current rates.

Iceland leads the rankings for the 16th year running, followed by Finland, Norway, the U.K. and New Zealand.

Bangladesh emerged as the best performer in South Asia, jumping 75 positions to rank 24 globally with notable gains in "political empowerment and economic participation".

#### Four key dimensions

The 19th edition of the report, which covers 148 economies, revealed both encouraging momentum and

## Race to equality

The report said the global gender gap has closed to 68.8%. Below are the rankings of select countries:



#### Top 10 countries

1	Iceland
2	Finland
3	Norway
4	United Kingdom
5	New Zealand
6	Sweden
7	Republic of Moldova
8	Namibia
9	Germany
10	Ireland

#### India and its neighbours

Bangladesh	24	<b>Bangladesh, with a ranking of 24, emerged as the best performer in South Asia</b>
Bhutan	119	
Nepal	125	
Sri Lanka	130	
India	131	
Maldives	138	
Pakistan	148	

Report said full parity remains

**123 years**

away at current rates

persistent structural barriers facing women worldwide.

The Global Gender Gap Index measures gender parity across four key dimensions: economic participation and opportunity; educational attainment; health and survival; and political empowerment.

The Indian economy's overall performance im-

proved in absolute terms by 0.3 points.

"One of the dimensions where India increases parity is in Economic Participation and Opportunity, where its score improves by +.9 percentage points to 40.7 per cent. While most indicator values remain the same, parity in estimated earned income rises from 28.6 per cent to 29.9

per cent, positively impacting the subindex score," the report said. India's performance in labour force participation rate remained the same (45.9%) as last year. In educational attainment, the report said, India scored 97.1%, reflecting positive shifts in female shares for literacy and tertiary education enrolment, which resulted in positive score improvements for the subindex as a whole.

"India also records higher parity in health and survival, driven by improved scores in sex ratio at birth and in healthy life expectancy," it said.

However, similar to other countries, parity in healthy life expectancy is obtained despite an overall reduction in the life expectancy of men and women, the report said.

India recorded a drop in parity in political empowerment for the second year in a row with female representation in parliament falling from 14.7% to 13.8%, the report said.

Nepal ranked 125, Sri Lanka 130, Bhutan 119, Maldives 138 and Pakistan ranked at the bottom among all countries at 148.

**India marks a relative decline in gender parity, ranks 131 worldwide**

**भारत में लिंग**

**समानता में**

**अपेक्षाकृत गिरावट**

**दर्ज, वैश्विक रैंकिंग**

**में 131वां स्थान**

**The World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2025 has ranked India at 131 out of 148 countries, with a parity score of just 64.1%.**

**वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 ने भारत को 148 देशों**

**में से 131वें स्थान पर रखा है, जिसकी समानता स्कोर सिर्फ 64.1% है।**

- India is among the **lowest-ranked countries in South Asia**. Last year, India was ranked **129 out of 146 countries**.  
भारत दक्षिण एशिया के सबसे निचले रैंक वाले देशों में शामिल है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 146 देशों में से 129 थी।
- The report said that while the **global gender gap has closed to 68.8%**, marking the **strongest annual advancement since COVID-19**, full parity remains **123 years away at current rates**.  
रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जेंडर गैप 68.8% तक कम हुआ है, जो कोविड-19 के बाद से सबसे बड़ी वार्षिक प्रगति है, लेकिन वर्तमान गति से पूर्ण समानता हासिल होने में 123 साल लगेंगे।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- **Iceland leads the rankings for the 16th consecutive year**, followed by **Finland, Norway, the U.K., and New Zealand.**  
आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड हैं।
- **Bangladesh emerged as the best performer in South Asia, jumping 75 positions to rank 24 globally**, with notable gains in **political empowerment and economic participation.**  
बांग्लादेश ने दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, और 75 स्थानों की छलांग लगाकर वैश्विक रैंकिंग में 24वां स्थान प्राप्त किया, जिसमें राजनीतिक सशक्तिकरण और आर्थिक भागीदारी में विशेष प्रगति हुई।

## Four key dimensions

### चार मुख्य आयाम

- The 19th edition of the report, covering **148 economies**, revealed **both encouraging momentum and persistent structural barriers** facing women worldwide.  
इस रिपोर्ट के 19वें संस्करण में, जो 148 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करता है, महिलाओं के लिए सकारात्मक प्रगति और संरचनात्मक बाधाओं दोनों को उजागर किया गया।
- The **Global Gender Gap Index measures gender parity across four dimensions:**  
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स चार आयामों में लिंग समानता को मापता है:
  - **Economic participation and opportunity**  
आर्थिक भागीदारी और अवसर
  - **Educational attainment**  
शैक्षणिक उपलब्धि
  - **Health and survival**  
स्वास्थ्य और जीवन
  - **Political empowerment**  
राजनीतिक सशक्तिकरण

## India's performance

### भारत का प्रदर्शन

- The Indian economy's overall performance improved in absolute terms by **0.3 points.**  
भारतीय अर्थव्यवस्था का कुल प्रदर्शन 0.3 अंकों से सुधरा है।
- One area where India made gains is **Economic Participation and Opportunity**, with its score improving by **0.9 percentage points to 40.7%.**  
भारत ने आर्थिक भागीदारी और अवसर के क्षेत्र में 0.9 प्रतिशत अंक की बढ़त के साथ स्कोर 40.7% तक पहुँचाया है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- Though most indicators stayed the same, **parity in estimated earned income** rose from **28.6% to 29.9%**, positively impacting the subindex score.  
अधिकांश संकेतक यथावत रहे, लेकिन अनुमानित अर्जित आय में समानता 28.6% से बढ़कर 29.9% हो गई, जिससे उप-सूचकांक स्कोर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- **The labour force participation rate** remained unchanged at **45.9%**, same as last year.  
श्रम बल भागीदारी दर 45.9% पर स्थिर रही, जो पिछले वर्ष के बराबर है।
- **In educational attainment**, India scored **97.1%**, reflecting **positive shifts in female literacy and tertiary education enrolment**.  
शैक्षणिक उपलब्धि में भारत का स्कोर 97.1% रहा, जो महिलाओं की साक्षरता और उच्च शिक्षा नामांकन में सकारात्मक बदलाव दर्शाता है।
- India also recorded **higher parity in health and survival**, due to **improved scores in sex ratio at birth and healthy life expectancy**.  
भारत ने स्वास्थ्य और जीवन में भी उच्च समानता दर्ज की, जो जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण है।
- However, like many countries, **parity in healthy life expectancy is achieved despite overall reduction in life expectancy for both men and women**.  
हालांकि, कई देशों की तरह, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में समानता पुरुषों और महिलाओं दोनों की औसत आयु में कमी के बावजूद प्राप्त की गई है।
- India recorded a **drop in political empowerment** for the **second year in a row**, with **female representation in parliament falling from 14.7% to 13.8%**.  
भारत में लगातार दूसरे वर्ष राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट दर्ज की गई, और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.7% से घटकर 13.8% हो गया।

## Regional Rankings in South Asia

### दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय रैंकिंग

- **Nepal ranked 125, Sri Lanka at 130, Bhutan at 119, Maldives at 138, and Pakistan ranked last at 148.**  
नेपाल की रैंकिंग 125, श्रीलंका 130, भूटान 119, मालदीव 138, और पाकिस्तान की रैंकिंग 148 (सबसे अंतिम) रही।

## World Economic Forum (WEF)

### विश्व आर्थिक मंच (WEF)

- The World Economic Forum (WEF) is an **international advocacy non-governmental organization and think tank**, based in **Cologne, Canton of Geneva, Switzerland**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur  
Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)  
Contact Number : 9971932488  
Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- विश्व आर्थिक मंच (WEF) एक अंतर्राष्ट्रीय प्रचार गैर-सरकारी संगठन और थिंक टैंक है, जिसका मुख्यालय कोलॉनी, जिनेवा कैंटन, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- It was founded on 24 January 1971 by German engineer Klaus Schwab.
- इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर क्लॉस श्वाब द्वारा की गई थी।
- The foundation's stated mission is "**improving the state of the world by engaging business, political, academic, and other leaders of society to shape global, regional, and industry agendas**".
- इस फाउंडेशन का घोषित मिशन है "दुनिया की स्थिति को सुधारना" जिसके लिए यह व्यवसाय, राजनीतिक, अकादमिक, और अन्य सामाजिक नेताओं को शामिल कर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा तैयार करता है।
- The foundation is mostly funded by its 1,000 member multi-national companies.
- यह फाउंडेशन मुख्य रूप से इसकी 1,000 सदस्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वित्त पोषित होती है।
- The WEF is mostly known for its **annual meeting at the end of January in Davos, a mountain resort in the canton of Graubünden, in the eastern Alps region of Switzerland.**
- WEF मुख्य रूप से जनवरी के अंत में दावोस में होने वाली अपनी **वार्षिक बैठक** के लिए जाना जाता है, जो ग्राउबुंडन कैंटन के एक पर्वतीय रिसॉर्ट, पूर्वी आल्प्स क्षेत्र, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- The meeting brings together some 3,000 paying members and selected participants – among whom are investors, business leaders, political leaders, economists, celebrities and journalists – for up to five days to discuss global issues across 500 sessions.
- इस बैठक में लगभग 3,000 भुगतान करने वाले सदस्य और चयनित प्रतिभागी शामिल होते हैं - जिनमें निवेशक, व्यापारिक नेता, राजनीतिक नेता, अर्थशास्त्री, सेलिब्रिटी और पत्रकार शामिल होते हैं - जो पांच दिनों तक 500 सत्रों में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
- Aside from Davos, the organization convenes regional conferences, it produces a series of reports, engages its members in sector-specific initiatives and provides a platform for leaders from selected stakeholder groups to collaborate on projects and initiatives.
- दावोस के अलावा, यह संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करता है, रिपोर्टों की एक श्रृंखला तैयार करता है, अपने सदस्यों को क्षेत्र-विशिष्ट पहलों में शामिल करता है और चयनित हितधारक समूहों के नेताओं को परियोजनाओं और पहलों पर सहयोग करने का मंच प्रदान करता है।
- The World Economic Forum and its annual meeting in Davos have received criticism over the years, including allegations of the organization's corporate capture of global and democratic institutions, institutional whitewashing initiatives, the public cost of security, the organization's tax-

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



exempt status, unclear decision processes and membership criteria, a lack of financial transparency, and the environmental footprint of its annual meetings.

• विश्व आर्थिक मंच और इसकी दावोस में वार्षिक बैठक को वर्षों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जिनमें संगठन द्वारा वैश्विक और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कॉर्पोरेट कब्जे, संस्थागत वाइटवॉशिंग पहलों, सुरक्षा की सार्वजनिक लागत, संगठन की कर-मुक्त स्थिति, अस्पष्ट निर्णय प्रक्रियाएं और सदस्यता मानदंड, वित्तीय पारदर्शिता की कमी, और इसकी वार्षिक बैठकों के पर्यावरणीय प्रभाव जैसे आरोप शामिल हैं।

## Research Reports

### अनुसंधान रिपोर्ट्स

- In particular, "Strategic Insight Teams" focus on producing reports of relevance in the fields of competitiveness, global risks, and scenario thinking.
- विशेष रूप से, "स्ट्रैटेजिक इनसाइट टीम" प्रतिस्पर्धा, वैश्विक जोखिमों और परिदृश्य चिंतन जैसे क्षेत्रों में प्रासंगिक रिपोर्ट तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- The "Competitiveness Team" produces a range of annual economic reports (first published in brackets):
- "प्रतिस्पर्धा टीम" कई वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट्स तैयार करती है (प्रथम प्रकाशन वर्ष को कोष्ठक में दर्शाया गया है):
- The **Global Competitiveness Report (1979)** measured competitiveness of countries and economies.
- ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट (1979) देशों और अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को मापती थी।
- The **Global Information Technology Report (2001)** assessed their competitiveness based on their IT readiness.
- ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट (2001) ने देशों की IT तत्परता के आधार पर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन किया।
- The **Global Gender Gap Report** examined critical areas of inequality between men and women.
- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जांच की।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The **Global Risks Report (2006)** assessed key global risks.
- ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट (2006) ने प्रमुख वैश्विक जोखिमों का आकलन किया।
- The **Global Travel and Tourism Report (2007)** measured travel and tourism competitiveness.
- ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट (2007) ने यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा को मापा।
- The **Financial Development Report (2008)** aimed to provide a **comprehensive means** for countries to establish **benchmarks** for various aspects of their **financial systems** and establish **priorities for improvement**.
- फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट (2008) ने देशों को उनके वित्तीय सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के लिए बेंचमार्क निर्धारित करने और सुधार की प्राथमिकताएँ तय करने के लिए एक समग्र साधन प्रदान करने का प्रयास किया।
- The **Global Enabling Trade Report (2008)** presented a **cross-country analysis** of the large number of **measures facilitating trade** among nations.
- ग्लोबल एनबलिंग ट्रेड रिपोर्ट (2008) ने देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाने वाले उपायों का अंतर-देशीय विश्लेषण प्रस्तुत किया।
- The "Risk Response Network" produces a **yearly report** assessing risks which are:
- "रिस्क रिस्पॉन्स नेटवर्क" एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है जो निम्नलिखित प्रकार के जोखिमों का आकलन करती है:
  - deemed to be within the **scope** of these teams,
  - जो इन टीमों के कार्यक्षेत्र में आते हैं,
  - have **cross-industry relevance**,
  - जिनका विभिन्न उद्योगों में महत्व होता है,
  - are **uncertain**,
  - जो अनिश्चित होते हैं,
  - have the **potential to cause upwards of US\$10 billion in economic damage**,
  - जो US\$10 अरब से अधिक का आर्थिक नुकसान पहुँचा सकते हैं,
  - have the **potential to cause major human suffering**,
  - जो मानव पीड़ा का कारण बन सकते हैं,



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- and which require a **multi-stakeholder approach** for mitigation.
- और जिनके नियंत्रण के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
- In 2020, the forum published a report entitled **Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy**.
- 2020 में, फोरम ने **Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy** नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
- In this report, the forum estimated that approximately **half of global GDP is highly or moderately dependent on nature** (the same as **IPBES's 2019 assessment report**).
- इस रिपोर्ट में फोरम ने अनुमान लगाया कि लगभग वैश्विक GDP का आधा भाग प्रकृति पर अत्यधिक या मध्यम रूप से निर्भर है (IPBES की 2019 मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार भी यही निष्कर्ष था)।
- The report also found that **1 dollar spent on nature restoration yields 9 dollars in economic benefits**.
- रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि प्राकृतिक पुनर्स्थापन पर खर्च किए गए 1 डॉलर से 9 डॉलर का आर्थिक लाभ मिलता है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>  
**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>  
**CONTACT: 9971932488**



**BIBLIOGRAPHY**



GETTY IMAGES



PAT



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



# All you need is love: Why Rumi lives inside everyone in times of gloom

The Sufi poet is the bestselling author in many parts of the world, and books on this 13th century advocator of love keep coming; writers like Brad Gooch point out that Rumi made claims for a religion of love that went beyond organised faith, and therein lies the reason for his universal appeal

ISS Paper I: A&C

Ziya Us Salam

There may not be a Shams around to guide us and lend a helping hand, but there is a bit of Rumi inside each one of us. He resides in every heart that's loved and lost, and understands that a man who knows no love knows no sorrow. He resides in a heart that confides, "I once had a thousand desires but in my one desire to know you, all else melted away."

Each heart reverberates to Rumi. Ask Coleman Barks, whose works on Rumi can light up the gloomiest of evenings besides filling up your bookshelf. As Robert Bly once wrote, recommending Barks' *The Essential Rumi*, "Coleman Barks has brought an immense gift to the study of Islamic poetry. His versions, witty and touched by Southern courtesy, support an exuberant Rumi never achieved before in English."

Room for conversation

A few pages into the book, and one realises there is a bit of Rumi to take away from each poem. For instance, 'The Far Mosque', where Rumi, alluding to Suleiman, one of the prophets of Islam, writes, "The place that Solomon made to worship in, called the Far Mosque, is not built of earth and water and stone, but of intention and wisdom and mystical conversation and compassionate action/Every part of it is intelligence and responsive to every other."

Called Jelaluddin Balkhi by the Afghans, where he was born in 1207, the fear of the rampaging Mongols forced his family to migrate to Konya in Turkey. The son of a well-respected theologian father, Rumi was initially an orthodox scholar of Islam. It all changed with a chance meeting with a wandering dervish, Shams of Tabriz. The two became inseparable.

Even as a debate rages about the nature of their relationship, most agree that Shams did become Rumi's mentor. So much so that even after Shams was probably murdered, Rumi continued to believe that Shams was now part of him, and when he wrote his poetry, it was Shams writing through him.

The making of a mystic

Brad Gooch, an authority on Rumi, writes in *Rumi's Secret: The Life of the Sufi Poet of Love*, "of the disruptive appearance of Shams" who "taught him to whirl and transformed him from a respectable Muslim preacher into a poet and a mystic". Such indecipherable love led to millions reading Rumi to turn a mirror to their inner selves. A Rumi reader is an explorer, a seeker. Rumi, writes Gooch, "made claims for a religion of love" that went beyond organised faith.

Rumi was a font from which everyone drank and came back richer, wiser. Today, he is the best-selling poet in the U.S. and his words have soothed musicians like Madonna and Chris Martin during challenging times in their lives with the

latter often quoting one of Rumi's poems, "This being human is a guest house/Every morning a new arrival/ A joy, a depression, a meanness/some momentary awareness comes/ as an unexpected visitor."

Unsurprisingly, the Rumi books keep coming. Noted author-translator Farrukh Dhondy has just penned *Rumi: A New Selection* (HarperPerennial), wherein he explains the reason for the abiding love for Rumi. Dhondy writes in a book itself deserving of much love and re-reading, "The sales of his books in American translation surpass those of William Shakespeare, John Keats, T.S. Eliot...Why? Rumi's great work, the 'Masnavi', is sometimes dubbed 'the Quran in verse'. It certainly is devoted to Islam, but to a version and interpretation of Islam with a long and widely adopted history loosely referred to in all its variations as 'Sufism'."

Dedicated to the divine

Interestingly, most of his ardent fans are not followers of Islam. They come to Rumi for mystical self-realisation. And for love. Dhondy analyses, "Rumi's verse doesn't celebrate explicit Romeo and Juliet interaction. The 'love' it celebrates can never be interpreted as the desperate emotion one has for the girl next door. The love expressed in Rumi's works, the six volumes and twenty-four thousand verses of the Masnavi, his Diwan-i-Shams dedicated to his inspiration and 'lover' Shams-u-Tabrez, and in his discourses

and lectures, is a dedication to the divine...When Rumi openly professes 'love' for his inspiration and spiritual partner, Shams, it's not an expression of a gay relationship, but rather a metaphor for a divine bond, a union of individual souls in a universal soul."

Not known to many, Shams himself had great respect for Rumi's acumen, learning and intellect. And Shams, as Dhondy quotes Franklin Lewis, "specifically says that there was no question of him being the master and Rumi the pupil".

Let the scholars agree to disagree; the joy is in discovering Rumi all over again, with each new book, each new author. Whether one is seeking love or languishing without it, Rumi's words provide a fine accompaniment. As disclosed in *Rumi's Little Book of Life* by Maryam Mafi and Azima Kolin, "Do not grieve over past joys, be sure they will reappear in another form. A child's joy is in milk and nursing but once weaned, it finds new joy in bread and honey... In sleep when the soul leaves the body you may dream of yourself as a tall cypress or as a beautiful rose, but be warned, my friend, all these phantoms dissolve into thin air once the soul returns to the body".

Of dreams, love, past and present, body and soul, Rumi's works encapsulate them all. Never quite like a Persian miniature garden, more like a walk in the wilds, full of the joy of the unseen.

## All you need is love: Why Rumi lives inside everyone in times of gloom

### आपको केवल प्रेम की ज़रूरत है: अंधकार के समय में रूमी हर किसी के भीतर क्यों बसते हैं

There may not be a Shams around to guide us, but there is a bit of Rumi inside each one of us.

हमारे मार्गदर्शन के लिए आज शम्स भले ही न हों, लेकिन रूमी का अंश हर एक के अंदर मौजूद है।

- Rumi lives in every heart that has loved and lost, and knows that a man who knows no love, knows no sorrow.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur  
 Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)  
 Contact Number : 9971932488  
 Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



रूमी हर उस दिल में रहते हैं जिसने प्रेम किया है और खोया है, और जो जानता है कि जो प्रेम नहीं जानता, वह दुःख भी नहीं जानता।

- Each heart resonates with Rumi's words like, "I once had a thousand desires but in my one desire to know you, all else melted away."

हर दिल रूमी की इन पंक्तियों से गूँजता है: "मेरी हज़ार इच्छाएँ थीं, लेकिन तुम्हें जानने की एक इच्छा में सब पिघल गई।"

- Translator **Coleman Barks** helped make Rumi accessible, bringing light to even the gloomiest evenings through his work.  
अनुवादक **कोलमैन बार्क्स** ने रूमी को सभी के लिए सुलभ बनाया और अपने कार्य से सबसे अंधकारमय संध्या को भी रोशन किया।

## Room for conversation

### संवाद के लिए स्थान

- In Rumi's poem '**The Far Mosque**', he writes that **Solomon's place of worship** was **built not of stone but of intention, wisdom, conversation, and compassion**.  
रूमी अपनी कविता 'द फार मॉस्क' में लिखते हैं कि सुलेमान का पूजा स्थल पत्थर से नहीं बल्कि इरादे, बुद्धिमत्ता, संवाद और करुणा से बना था।
- Every part of that mosque is **intelligent** and responsive to every other part, suggesting a spiritual unity.  
उस मस्जिद का हर हिस्सा **बुद्धिमान** है और एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो आध्यात्मिक एकता को दर्शाता है।
- Rumi, born as **Jelaluddin Balkhi** in **1207** in Afghanistan, fled with his family from **Mongol invasion** to settle in **Konya, Turkey**.  
रूमी का जन्म **1207** में अफगानिस्तान में **जेलालुद्दीन बल्खी** के रूप में हुआ था, जो **मंगोल आक्रमण** के कारण अपने परिवार के साथ **तुर्की के कोन्या** चले गए।
- **Son of a theologian**, Rumi was initially an **orthodox Islamic scholar** until he met **Shams of Tabriz**, a wandering dervish.  
एक धर्मशास्त्री के पुत्र, रूमी पहले **पारंपरिक इस्लामी विद्वान** थे, जब तक कि उनकी मुलाकात **शम्स तबरेज़** से नहीं हुई।
- Their deep bond transformed Rumi. Even after Shams' likely **murder**, Rumi believed Shams lived within him and wrote through him.  
उनका गहरा संबंध रूमी को बदल गया। शम्स की संभवतः **हत्या** के बाद भी रूमी मानते थे कि शम्स उनके भीतर जीवित हैं और उन्हीं के माध्यम से लिखते हैं।

## The making of a mystic

### एक सूफी संत का निर्माण



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- **Brad Gooch**, a biographer, describes how Shams taught Rumi to **whirl** and turned him from a preacher into a **poet and mystic**.  
ब्रेड गूच, एक जीवनीकार, बताते हैं कि शम्स ने रूमी को नृत्य करना सिखाया और उन्हें एक उपदेशक से कवि और सूफी संत बना दिया।
- **Rumi's poetry reflects a religion of love, which transcends organised religion.**  
रूमी की कविताएँ प्रेम के धर्म को दर्शाती हैं, जो संगठित धर्म से परे है।
- Rumi has become a **mirror for self-exploration**. His readers are seekers, drawn to inner truths.  
रूमी आत्म-अन्वेषण का दर्पण बन गए हैं। उनके पाठक खोजी होते हैं, जो आंतरिक सच्चाई की ओर खिंचते हैं।
- Today, Rumi is the **best-selling poet in the U.S.**, with fans like **Madonna** and **Chris Martin** quoting his poems.  
आज रूमी अमेरिका में सबसे अधिक बिकने वाले कवि हैं, जिनके प्रशंसकों में मैडोना और क्रिस मार्टिन जैसे लोग शामिल हैं।
- Chris Martin often quotes Rumi's lines: "This being human is a guest house/Every morning a new arrival."  
क्रिस मार्टिन अक्सर रूमी की यह पंक्ति उद्धृत करते हैं: "यह मानव होना एक अतिथि गृह है/हर सुबह एक नई आगमन।"

## Rumi's continued relevance

### रूमी की सतत प्रासंगिकता

- Books on Rumi continue to appear. **Farrukh Dhondy** recently released *Rumi: A New Selection*.  
रूमी पर किताबें लगातार प्रकाशित हो रही हैं। हाल ही में फरूख धोंडी ने रूमी: ए न्यू सेलेक्शन प्रकाशित की है।
- Dhondy explains Rumi's enduring appeal by noting that his book sales in **American translation surpass those of Shakespeare, Keats, Eliot**.  
धोंडी बताते हैं कि रूमी की किताबों की अमेरिकी अनुवाद में बिक्री शेक्सपियर, कीट्स और एलियट से भी अधिक है।
- **Rumi's magnum opus, the 'Masnavi'**, is often called the '**Quran in verse**', representing a **Sufi interpretation** of Islam.  
रूमी की महान कृति 'मसनवी' को अक्सर 'कविता में कुरान' कहा जाता है, जो इस्लाम की एक सूफी व्याख्या को दर्शाती है।

## Dedicated to the Divine

### ईश्वर को समर्पित

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



- Interestingly, most of Rumi's **devoted admirers** are not followers of **Islam**, but rather come to his works in search of **mystical self-realisation and love**.
- दिलचस्प बात यह है कि रूमी के अधिकांश समर्पित प्रशंसक इस्लाम के अनुयायी नहीं हैं, बल्कि वे उनकी रचनाओं को **आध्यात्मिक आत्मबोध और प्रेम** की तलाश में पढ़ते हैं।
- As Farrukh Dhondy explains, the **love that Rumi celebrates in his poetry is not about romantic passion like that of Romeo and Juliet**.
- जैसा कि फ़रूख़ धोंडी बताते हैं, रूमी की कविता में जो **प्रेम** व्यक्त होता है वह रोमियो और जूलियट जैसे **रोमांटिक प्रेम** के बारे में नहीं है।
- It is never the kind of **desperate affection** one might feel for a **neighbour**, but instead, it represents a **deep and spiritual love**.
- यह वह **बेचैन मोह** नहीं है जो किसी **पड़ोसी** के लिए महसूस किया जाए, बल्कि यह एक गहरी और **आध्यात्मिक भक्ति** है।
- This love flows through his **six volumes and 24,000 verses** of the Masnavi, in his **Diwan-i-Shams—a work dedicated to his spiritual guide and inspiration Shams of Tabriz**—and also in his lectures and discourses. The love expressed in all of these is ultimately a **devotion to the divine**.
- यह प्रेम उनकी मसनवी की **छह पुस्तकों** और **24,000 छंदों**, उनके दीवान-ए-शम्स—जो उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक **शम्स-ए-तबरिज़** को समर्पित है—और उनके व्याख्यानो और प्रवचनों में बहता है। इन सभी में व्यक्त प्रेम अंततः **ईश्वर के प्रति समर्पण** है।
- When Rumi openly professes his love for **Shams**, it should not be interpreted as a **gay relationship** but as a **metaphor for a divine connection—a union of individual souls with the universal soul**.
- जब रूमी **शम्स** के प्रति अपने प्रेम को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो उसे किसी **समलैंगिक संबंध** के रूप में नहीं, बल्कि एक **ईश्वरीय संबंध** के रूप के रूप में देखा जाना चाहिए—एक **व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा** के मिलन के रूप में।
- What many do not know is that **Shams**, too, had deep respect for Rumi's **intellect and spiritual insight**. As Dhondy cites from **Franklin Lewis**, Shams clearly stated that there was no question of him being the **master** and Rumi the **pupil**—their bond was far more **equal and spiritual**.
- बहुत से लोग नहीं जानते कि **शम्स** ने भी रूमी की **बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक समझ** का गहरा सम्मान किया। जैसा कि धोंडी ने **फ्रैंकलिन लुईस** के हवाले से बताया, शम्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह **गुरु नहीं** थे और रूमी **केवल शिष्य** नहीं थे—उनका संबंध कहीं अधिक **समान और आध्यात्मिक** था।
- Let scholars continue to debate the true nature of their relationship. The real **joy** lies in how readers **rediscover Rumi** again and again, with each **new book** and each **new translator**. Whether one is in **search of love** or suffering from the **lack of it**, **Rumi's words offer solace, wisdom, and a sense of inner reflection**.
- विद्वानों को उनके संबंध की वास्तविक प्रकृति पर बहस करते रहने दीजिए। असली **आनंद** तो इसमें है कि पाठक **हर नई किताब और हर नए अनुवादक** के साथ **रूमी को फिर से खोजते हैं**। चाहे कोई **प्रेम की तलाश** में हो या उसकी **कमी से पीड़ित**, रूमी के शब्द **सांत्वना, ज्ञान और आंतरिक चिंतन** प्रदान करते हैं।



- As shared in Rumi's Little Book of Life by **Maryam Mafi and Azima Kolin**, Rumi advises: **"Do not grieve over past joys, be sure they will reappear in another form. A child's joy is in milk and nursing, but once weaned, it finds new joy in bread and honey."**
- जैसा कि **मरयम माफी और अज़ीमा कोलिन** की रूमीस लिटिल बुक ऑफ लाइफ में बताया गया है, रूमी सलाह देते हैं: **"बीते आनंद पर शोक मत करो, वे किसी और रूप में फिर लौटेंगे। बच्चे को दूध और दूध पिलाने में आनंद मिलता है, लेकिन जब वह छुड़ाया जाता है, तो उसे रोटी और शहद में नया आनंद मिलता है।"**
- In sleep, Rumi says, the soul may dream itself as a **tall cypress** or a **beautiful rose**, but once it **returns to the body**, all these **phantoms** disappear. His works explore **dreams, love, past and present**, the **body** and the **soul**. They are not like a neatly tended **Persian miniature garden**, but more like a **walk in the wilds**, full of **unseen joy** and **spiritual depth**.
- रूमी कहते हैं कि नींद में आत्मा खुद को कभी एक लंबे चिर वृक्ष या सुंदर गुलाब के रूप में देख सकती है, लेकिन जब वह शरीर में लौटती है, तो ये सभी माया रूपी दृश्य मिट जाते हैं। उनकी रचनाएँ सपनों, प्रेम, भूत और वर्तमान, शरीर और आत्मा की खोज करती हैं। वे किसी सजी-धजी फारसी बगीचे की तरह नहीं, बल्कि अदृश्य आनंद और आध्यात्मिक गहराई से भरी जंगली सैर की तरह होती हैं।

## STOCKHOLM

### Israel's starvation of Gaza is a 'war crime': Sweden's Foreign Minister



GS Paper I: Mapping

REUTERS

Sweden's Foreign Minister Maria Malmer Stenergard on Thursday condemned Israel for blocking humanitarian aid and targeting aid points in Gaza, causing "starvation", which she called a "war crime". She urged swift delivery of food, water, and medicine, highlighting Israel's failure to meet humanitarian law commitments. AFP

### Israel's Starvation of Gaza Called a War Crime by Sweden

#### स्वीडन द्वारा गाज़ा में भुखमरी को युद्ध अपराध करार दिया गया

• Sweden's Foreign Minister, **Maria Malmer Stenergard**, on Thursday, condemned Israel for **blocking humanitarian aid** and **targeting aid points** in **Gaza**, which caused **starvation**.

स्वीडन की विदेश मंत्री मारिया मॉल्मर स्टेनरगार्ड ने गुरुवार को गाज़ा में इज़राइल द्वारा मानवीय सहायता को रोकने और सहायता केंद्रों को निशाना बनाने की निंदा की, जिससे वहां भुखमरी फैली।



- She described this situation as a **"war crime"**.  
उन्होंने इस स्थिति को "युद्ध अपराध" बताया।
- She urged the **swift delivery** of **food, water, and medicine**, pointing out **Israel's failure** to meet **humanitarian law commitments**.  
उन्होंने भोजन, पानी और दवाओं की त्वरित आपूर्ति की मांग की और इज़राइल की मानवीय कानूनों के प्रति विफलताओं की ओर इशारा किया।

## CAIRO

### Sudan's RSF claims control of key border zone with Libya and Egypt



GS Paper I: Mapping

REUTERS

Sudanese paramilitary Rapid Support Forces (RSF) claimed control of a strategic border zone with Libya and Egypt amid ongoing civil war. The military had on Tuesday evacuated the area, accusing Libyan commander Khalifa Hifter's forces of supporting RSF attacks in a "blatant aggression against Sudan, its land, and its people". AP

forces of supporting RSF attacks.

सूडानी सेना ने मंगलवार को इस क्षेत्र को खाली किया और लीबियाई कमांडर खलीफा हफतार की सेनाओं पर RSF के हमलों में समर्थन देने का आरोप लगाया।

- Sudan called it a **"blatant aggression"** against its **land and people**.  
सूडान ने इसे अपनी भूमि और जनता के खिलाफ "स्पष्ट आक्रामकता" करार दिया।

### Sudan's RSF Claims Control of Border with Libya and Egypt

सूडान की RSF ने लीबिया और मिस्र की सीमा पर नियंत्रण का दावा किया

- **Sudanese paramilitary Rapid Support Forces (RSF)** claimed control of a **strategic border zone** shared with **Libya and Egypt** amid the ongoing **civil war**.

सूडान की अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) ने लीबिया और मिस्र से लगी रणनीतिक सीमा क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा किया है, जो कि वहां जारी गृहयुद्ध के दौरान हुआ।

- The **Sudanese military** had **evacuated** the area on **Tuesday**, accusing **Libyan commander Khalifa Hifter's**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



## TOPICS COVERED GS Paper II: Polity, Governance, and International Relations)

- 1. Trump's Tariffs and a U.S.-India Trade Agreement**  
ट्रंप के टैरिफ और एक अमेरिका-भारत व्यापार समझौता
- 2. Is Bangladesh Slipping into Authoritarianism?**  
क्या बांग्लादेश अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है?
- 3. IAEA Board Censures Iran for Nuclear Non-Compliance**  
परमाणु दायित्वों का पालन न करने पर ईरान की IAEA बोर्ड द्वारा निंदा
- 4. Thousands Join Rally in Georgia After Activist Jailed Over Pro-Europe Protest**  
यूरोप समर्थक प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद जॉर्जिया में हजारों लोगों ने रैली निकाली
- 5. China-backed Militia Secures Control of New Rare Earth Mines in Myanmar**  
म्यांमार में चीन समर्थित मिलिशिया ने नए रेयर अर्थ खदानों पर नियंत्रण किया



## Trump's tariffs and a U.S.-India trade agreement

GS Paper II, India-US

At the end of the day, it was not the big fight between nations, but a case brought by five small U.S. businesses that presented the biggest challenge to U.S. President Donald Trump's sweeping tariffs.

Tariffs are the substance of laws and regulations formulated after highly rigorous trade negotiations. The binding of tariffs through schedules of commitments in trade agreements, offers much needed certainty and predictability to businesses trading across borders. Which is why Mr. Trump's sweeping tariffs – 10% to 135%, over 100 countries worldwide – were a stunning repudiation of the rules of trade. That it also extended to the barren Arctic marine reserves of Heard and McDonald Islands, uninhabited by humans, just highlighted the irony of a bizarre executive order.

This sweeping executive action also upended the fundamental principle of separation of powers between the three branches of government – the legislature, the executive and the judiciary – which lie at the heart of any democratic constitutional framework. That such an exercise of executive authority could happen without any checks and balances in the U.S., widely regarded as among the modern world's oldest democracies with a strong constitutional framework, was another point of reckoning.

Five small and mid-sized U.S. businesses, dealing with wines, plastics, bicycles, musical circuits, and fishing equipment, took on the U.S. administration, and challenged the presidential executive order at the U.S. Court of International Trade (U.S. CIT), stating that the tariffs were unlawfully harming their operations and economic viability.

### A closer look at 'trade deficits'

The Trump administration argued that the tariffs were necessary to address the "national emergency" created by U.S. trade deficits with all countries worldwide. Trade deficit occurs when imports exceed exports. A "deficit" is not necessarily bad for a country's economic health. It only demonstrates the availability of consumer wealth to purchase imported goods. In any event, the U.S. administration, bizarrely, did not account for U.S. export of services in its calculation. For example, the U.S. has cited the \$44.4 billion trade deficit with India. This, however, does not consider trade in services (which includes digital



**R.V. Anuradha**

is a Partner at Clarus Law Associates, New Delhi

services, financial services, education) and arms trade, after considering which, the Global Trade Research Initiative has estimated that the U.S. actually runs a \$35 billion-\$40 billion overall surplus with India.

The U.S. CIT, in its judgment dated May 28, 2025, ruled that the worldwide and retaliatory tariffs exceeded any authority under law. The court cautioned against the blatant and overarching use of "national emergency" powers by the President. It noted that the mere incantation of "national emergency" cannot sound the "death-knell of the Constitution", and, additionally, cannot enable the President to rewrite tariff commitments in international agreements.

The strong and powerful ruling, so far, has had little practical impact, having been stayed the very next day by a U.S. appeals court. The tariffs and the threat of tariffs, therefore, continue, and so does the pressure to conclude a trade deal with the U.S. The Trump administration had in fact, argued before the U.S. CIT that the enhanced tariffs provided it leverage in trade negotiations – an argument which the CIT ruled does not in any manner mitigate its legal infirmity. More egregious U.S. executive actions are promised as part of the Trump One Big Beautiful Bill (OBBB) – a proposed omnibus law which would reportedly also grant the executive immunity from enforcement of judicial orders.

### Where India stands

Where does all this really leave India? The governments of both countries have been indicating an early conclusion of a trade agreement, before the U.S. threat of the July 8 deadline. Despite ongoing negotiations, the U.S. has enhanced its existing punitive tariffs of 25% on steel and 10% on aluminium imports (in force since Mr. Trump's first term), to 50% on both. Pursuant to complaints initiated at the World Trade Organization by Switzerland, Norway, China and Türkiye, WTO panels had ruled (in 2022) that the tariffs imposed during Mr. Trump's first term, do not meet the proposed justification of national security. India too had initiated a WTO dispute, but withdrew this on the basis of a "mutually agreed solution" with the U.S. in 2023. That mutual solution clearly did not prevent Trump administration extending the new 50% tariffs on steel and aluminium to India as well. India's contemplated retaliation at the WTO has

been resisted by the U.S. A purported target of the Trump administration's ire is China's rise. The argument that the U.S.-China trade impasse presents a possible strategic advantage for India, however, is made uncertain by two recent developments: the U.S. and China's truce, pausing their retaliatory tariffs against each other and working towards a negotiated solution; and, more importantly, the U.S. administration's threats to impose tariffs on Apple's products, should it manufacture in India. Mr. Trump's transactional approach also indicates that there is no guarantee that the U.S. will intervene in India's favour should there be a military standoff with China.

### The path ahead

In any trade agreement with the U.S., therefore, a careful balancing of India's interests is paramount. Any deal would need to ensure the removal of all additional tariffs on India's exports, allay concerns about retaliatory tariffs on U.S. investments, such as that from Apple in India, and ensure that the proposed OBBA Act's 3.5% tax on remittances sent from the U.S. does not apply to remittances by Indian citizens. India should also seek assurance that there would be no retaliation against India's digital services taxes. A long-standing concern for India is also the fears and backlash against H-1B visas, used widely by tech companies for their Indian employees. It is critical for a trade deal to address the issue of visas required for services trade.

It is equally important for both sides to iron out the delivery of cross-border trade in services, which includes aspects relating to data flows and their regulation.

Above all, any trade agreement that India negotiates with the U.S. needs to be fully aligned with India's commitments under the WTO. The U.S. disregard for multilateral institutions, notwithstanding, WTO's multilateral set of rules is the only real safeguard in an uncertain world, and India needs to do much more to preserve its foundations, as committed during its G-20 presidency.

Finally, India should have the ability to stay out of any sub-optimal deal. Mr. Trump's tariffs, while painful, are likely to have a short lifespan with the biggest challenge emerging from within the U.S. itself.

*The views expressed are personal*

## Trump's Tariffs and a U.S.-India Trade Agreement

### ट्रंप के टैरिफ और एक अमेरिका-भारत व्यापार समझौता

At the end of the day, it was not a major geopolitical conflict, but a case filed by five small U.S. businesses that posed the biggest challenge to President Donald Trump's sweeping tariffs.

अंततः यह कोई बड़ा भू-राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि अमेरिका की पांच छोटी कंपनियों द्वारा दायर एक मामला था जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ को सबसे बड़ी चुनौती दी।

- Tariffs, typically formed through rigorous trade negotiations, are meant to provide certainty and predictability in international business.



टैरिफ, आमतौर पर कड़े व्यापार समझौतों के ज़रिए बनाए जाते हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निश्चितता और पूर्वानुमान मिल सके।

- Mr. Trump's tariffs ranging from **10% to 135%**, imposed on over **100 countries**, defied established global trade rules.  
10% से 135% तक के ट्रंप के टैरिफ, जो 100 से अधिक देशों पर लगाए गए, ने वैश्विक व्यापार के स्थापित नियमों को नकारा।
- These tariffs were so sweeping that they extended even to **uninhabited Arctic marine reserves** like **Heard and McDonald Islands**, underlining the bizarre nature of the executive order.  
ये टैरिफ इतने व्यापक थे कि इन्हें **हीरड और मैकडॉनल्ड द्वीप** जैसे निर्जन आर्कटिक समुद्री क्षेत्र तक लागू कर दिया गया, जिससे यह कार्यकारी आदेश अजीब प्रतीत हुआ।
- This executive action disrupted the **separation of powers** between the **legislature, executive, and judiciary**, which is fundamental to any **democratic constitution**.  
इस कार्यकारी आदेश ने **विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका** के बीच की शक्ति के विभाजन को बाधित किया, जो किसी भी **लोकतांत्रिक संविधान** की मूल भावना है।
- That such unchecked **executive authority** could exist in a country like the **U.S.**, known for its **strong constitutional framework**, was deeply concerning.  
कि ऐसी **बिना नियंत्रण की कार्यपालिका शक्ति** अमेरिका जैसे **मजबूत संवैधानिक ढांचे वाले देश** में मौजूद हो सकती है, यह बेहद चिंताजनक था।
- **Five small and mid-sized U.S. firms** dealing in **wines, plastics, bicycles, musical circuits, and fishing equipment** challenged the tariffs in the **U.S. Court of International Trade (CIT)**.  
शराब, प्लास्टिक, साइकिल, म्यूजिकल सर्किट और मछली पकड़ने के उपकरणों से जुड़ी पांच छोटी और मध्यम अमेरिकी कंपनियों ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय (CIT) में इन टैरिफ को चुनौती दी।
- They argued that the tariffs were **illegally harming their business** and threatening their **economic survival**.  
उन्होंने तर्क दिया कि ये टैरिफ उनके कारोबार को अवैध रूप से नुकसान पहुँचा रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं।
- **Trump administration** justified the tariffs as a response to a "**national emergency**" caused by **U.S. trade deficits** with all countries.  
ट्रंप प्रशासन ने इन टैरिफ को सभी देशों के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे से उत्पन्न "**राष्ट्रीय आपातकाल**" के जवाब के रूप में सही ठहराया।
- A **trade deficit** occurs when **imports exceed exports**, but this isn't necessarily harmful to an economy.  
व्यापार घाटा तब होता है जब **आयात निर्यात से अधिक** होता है, लेकिन यह हमेशा देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक नहीं होता।
- It may simply reflect **consumer wealth** and the ability to purchase **foreign goods**.  
यह केवल **उपभोक्ता की समृद्धि और विदेशी वस्तुएँ खरीदने की क्षमता** को दर्शा सकता है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The U.S. calculation of a **\$44.4 billion trade deficit with India** ignored the **services trade and arms sales**.  
अमेरिका द्वारा भारत के साथ **\$44.4 बिलियन के व्यापार घाटे** की गणना में **सेवाओं का व्यापार और हथियारों की बिक्री** को नजरअंदाज किया गया।
- When these are included, the **Global Trade Research Initiative** estimates the **U.S. actually runs a \$35 to \$40 billion surplus with India**.  
इन तत्वों को शामिल करने पर, **ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव** का अनुमान है कि **अमेरिका वास्तव में भारत के साथ \$35 से \$40 बिलियन का अधिशेष चलाता है**।
- In its **May 28, 2025 ruling**, the **U.S. CIT** held that the tariffs **exceeded legal authority and abused emergency powers**.  
**28 मई 2025 के अपने फैसले में**, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने कहा कि ये टैरिफ **कानूनी अधिकारों से परे थे और आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग** किया गया।
- The court noted that invoking **“national emergency”** does not give the President the right to **override international trade agreements**.  
न्यायालय ने माना कि **“राष्ट्रीय आपातकाल”** का हवाला देकर राष्ट्रपति को **अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों को बदलने का अधिकार नहीं मिल जाता**।
- However, this strong judgment had **limited impact**, as it was **stayed the very next day** by a **U.S. appeals court**.  
हालाँकि, यह सशक्त निर्णय भी **व्यवहारिक रूप से प्रभावहीन** रहा क्योंकि इसे **अगले ही दिन अमेरिकी अपीलिय अदालत ने स्थगित कर दिया**।
- As a result, the **tariffs and the pressure to strike a U.S.-India trade deal** continue to persist.  
इस कारण, **टैरिफ और अमेरिका-भारत व्यापार समझौते का दबाव अब भी बना हुआ है**।
- The Trump administration even claimed that these **tariffs gave the U.S. negotiating leverage**, but the court ruled that **legal flaws remain unchanged**.  
ट्रंप प्रशासन ने यहाँ तक दावा किया कि ये **टैरिफ अमेरिका को बातचीत में ताकत देते हैं**, लेकिन अदालत ने कहा कि इससे **कानूनी कमियाँ दूर नहीं होतीं**।
- The administration is also considering new steps under the **Trump One Big Beautiful Bill (OB BB)**, which could **grant immunity to the executive from judicial enforcement**.  
प्रशासन अब **ट्रंप वन बिग ब्यूटीफुल बिल (OB BB)** के तहत नए कदम उठाने की सोच रहा है, जो **कार्यपालिका को न्यायिक आदेशों के पालन से छूट दे सकता है**।

## Where India Stands

### भारत की स्थिति

- Both the Indian and U.S. governments have indicated a possible **early conclusion of a trade agreement** before the **July 8 deadline** imposed by the U.S.  
भारत और अमेरिका की सरकारों ने **8 जुलाई की समय-सीमा से पहले एक व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष** की संभावना जताई है।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



- Despite ongoing negotiations, the U.S. has increased existing punitive tariffs of 25% on steel and 10% on aluminium to 50% on both.  
हालांकि बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% के वर्तमान दंडात्मक टैरिफ को बढ़ाकर दोनों पर 50% कर दिया है।
- The World Trade Organization (WTO) had earlier ruled in 2022 that these tariffs did not qualify under national security justification.  
2022 में, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने फैसला दिया था कि ये टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा औचित्य के अंतर्गत योग्य नहीं ठहरते।
- India had also initiated a WTO dispute but withdrew it in 2023 based on a “mutually agreed solution” with the U.S.  
भारत ने भी डब्ल्यूटीओ में एक विवाद शुरू किया था, लेकिन 2023 में इसे "आपसी सहमति से समाधान" के आधार पर वापस ले लिया।
- However, that agreement did not stop the Trump administration from extending the new 50% tariffs on steel and aluminium to India.  
हालांकि, वह समझौता भारत पर स्टील और एल्युमिनियम पर नए 50% टैरिफ लागू करने से ट्रम्प प्रशासन को नहीं रोक सका।
- India's proposed retaliation at the WTO has been resisted by the U.S.  
भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ में प्रस्तावित प्रतिकारात्मक कदम को अमेरिका ने विरोध किया है।
- Although some argue that the U.S.-China trade conflict benefits India strategically, this is undermined by two developments:  
कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष भारत के लिए रणनीतिक रूप से लाभदायक हो सकता है, लेकिन दो घटनाक्रमों से यह धारणा कमजोर हो गई है:
  - A truce between the U.S. and China, as they work toward a negotiated solution.  
– अमेरिका और चीन के बीच युद्धविराम, जहां वे एक सामूहिक समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं।
  - A threat by the U.S. to impose tariffs on Apple's products if they are manufactured in India.  
– यदि Apple के उत्पाद भारत में बनाए जाते हैं, तो अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाने की धमकी।
- Trump's transactional approach also suggests there is no guarantee that the U.S. will support India in a military standoff with China.  
ट्रम्प की लेन-देन वाली नीति यह भी संकेत देती है कि चीन के साथ सैन्य टकराव की स्थिति में भारत को अमेरिका का समर्थन मिलने की कोई गारंटी नहीं है।

## The Path Ahead

### आगे का रास्ता

- Any trade deal with the U.S. must carefully balance India's interests.  
अमेरिका के साथ कोई भी व्यापार समझौता भारत के हितों का सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए।
- It must ensure the removal of all additional tariffs on India's exports.  
इसमें भारत के निर्यात पर लगे सभी अतिरिक्त टैरिफ को हटाना सुनिश्चित करना चाहिए।



- The agreement should **address concerns** about retaliatory tariffs on **U.S. investments in India**, such as Apple.  
इस समझौते में भारत में अमेरिकी निवेश (जैसे Apple) पर प्रतिकारात्मक टैरिफ को लेकर चिंताओं का समाधान भी होना चाहिए।
- India should also ensure that the proposed **OBBB Act's 3.5% remittance tax** does not apply to **remittances by Indian citizens**.  
भारत को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित **OBBB अधिनियम का 3.5% प्रेषण कर भारतीय नागरिकों द्वारा भेजी गई राशि पर लागू न हो।**
- India must also seek **protection for its digital services taxes** from U.S. retaliation.  
भारत को अपनी डिजिटल सेवा कर प्रणाली को अमेरिका की प्रतिकारात्मक कार्रवाई से सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- Another concern is the **uncertainty over H-1B visas**, widely used by tech firms for Indian professionals.  
एक और चिंता का विषय है **H-1B वीजा को लेकर अनिश्चितता**, जिसका व्यापक उपयोग तकनीकी कंपनियां **भारतीय पेशेवरों** के लिए करती हैं।
- The **issue of visas for services trade** must be addressed as part of the deal.  
**सेवाओं के व्यापार से संबंधित वीजा मुद्दों** का समाधान भी समझौते में होना चाहिए।
- Both countries must also resolve matters related to **cross-border trade in services**, especially **data flows and regulation**.  
दोनों देशों को **सेवाओं के सीमा-पार व्यापार**, खासकर डेटा प्रवाह और इसके नियमन से जुड़े मुद्दों को भी हल करना होगा।
- Most importantly, any agreement should be **fully aligned with India's WTO commitments**.  
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी समझौता **भारत की डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धताओं के अनुरूप** होना चाहिए।
- The **WTO's multilateral framework** remains India's **best safeguard** in a volatile global order.  
**डब्ल्यूटीओ की बहुपक्षीय रूपरेखा** एक **अस्थिर वैश्विक व्यवस्था में भारत की सबसे मजबूत सुरक्षा** है।
- India must take more steps to **protect this system**, as promised during its **G-20 presidency**.  
भारत को अपनी **G-20 अध्यक्षता** के दौरान किए गए वादे के अनुसार **इस प्रणाली की रक्षा के लिए और कदम उठाने होंगे।**
- Finally, India should retain the **ability to walk away** from any **sub-optimal deal**.  
अंततः भारत को किसी भी **अल्पतम समझौते से अलग होने की क्षमता** बनाए रखनी चाहिए।
- **Trump's tariffs**, although harmful, are likely to be **short-lived**, especially as **internal opposition within the U.S.** increases.  
**ट्रम्प के टैरिफ**, हालांकि हानिकारक हैं, लेकिन **संभावना है कि वे अल्पकालिक होंगे**, खासकर जब **अमेरिका के भीतर से विरोध बढ़ रहा है।**



## Is Bangladesh slipping into authoritarianism?

GSS Paper II

PARLEY

**O**n June 7, on the eve of Eid ul Azha, the Chief Adviser to the interim government in Bangladesh, Dr. Muhammad Yunus, delivered a televised address to the nation, promising to hold elections in April 2026. He also announced that the country would witness the launch of the 'July Proclamation', which had been earlier planned by student activists to "bury" the Constitution of Bangladesh, as it is linked to the founder of Bangladesh and Awami League co-founder, Sheikh Mujibur Rahman. Prof. Yunus said that the document will "include a list of reform proposals, agreed upon by all parties, aimed at building a welfare-oriented state." As the interim government of Bangladesh has announced that there could be constitutional reforms, there are concerns about the country's political direction. Some worry that democratic progress has stalled. Is Bangladesh slipping into authoritarianism? Smruti S. Pattanaik and Sanjay Pulipaka discuss the question in a conversation moderated by Kallol Bhattacharjee. Edited excerpts:

**What prompted the unusually aggressive tone of Professor Yunus in his Eid speech?**

**Smruti S. Pattanaik:** Prof. Yunus has been under a lot of pressure recently. The Army chief, General Waker-Uz-Zaman, insisted in his meeting with commanding officers that elections need to be held by the end of the year. Whenever he (Prof. Yunus) faces challenges, he refers to internal and external threats and defeated forces. The BNP (Bangladesh Nationalist Party) said that the speech was expected to be just an Eid greeting, but ended up being about everything in the country. Prof. Yunus had promised elections earlier too, saying they would be held as early as December 2025. All his reforms do not have any meaning as he is not running an elected government. He is clearly trying to lengthen the term of the interim government.

**Sanjay Pulipaka:** We need to remember that there is nothing 'interim' about this government. Interim governments come for a short period of time to achieve certain specific objectives, such as conducting elections. For instance, in 1990, a caretaker government came into place in Bangladesh. It was given a 90-day mandate to conduct elections, shut shop, and hand over things to the next government.

What we are seeing now is unique. We are seeing an interim government carrying out constitutional reforms. Interim governments are not constituent assemblies and they are not



Chief Adviser to the Government of Bangladesh, Professor Muhammad Yunus.  
REUTERS

**parliaments; they are arrangements to pave the way for the elected government.** They are supposed to leave the bigger issues to the elected government. So, what we are seeing in Bangladesh is undemocratic, and this is of interest to us since it is happening in our neighbourhood.

While an interim administration will need to carry out some reforms, actual major reforms can be conducted only by an elected government. The scale at which this interim government is trying to go about its reforms is frightening. It is going on extending its tenure. One of the largest political parties is banned (Awami League). The BNP, the other big political party, is unhappy with the way things are happening. With the major political parties absent from the picture, some political parties with an unhealthy agenda are stepping into the political space.

**Do you think the July Proclamation is going to replace the 1972 Constitution that was framed after the Liberation War of 1971?**

**SSP:** That seems to be the objective. The interim government seems to want to ensure that the legacy of 1971 does not remain relevant. I think it wants to make July 2024 the starting point of the students' political movement and a new chapter in Bangladesh's polity. In the history of Bangladesh, December and August are special months (December 16 marks Victory Day, commemorating the country's independence in 1971, and August is associated with the assassination of Sheikh Mujibur Rahman). But now, the attempt is to highlight the month of



It appears that the charter of July 2024 will be used to bring some sort of legitimacy to the interim government of Prof. Yunus as elections are at least 10 months away

SMRUTI S. PATTANAİK

July as a new beginning.

The idea of bringing out a July Proclamation highlighting the anti-Sheikh Hasina upheaval is something that the BNP is also not comfortable with. The July Charter may not entirely replace the Constitution, but it is a kind of charter which will guide the state. Bangladesh's Constitution had four foundational principles: secularism, democracy, Bengali nationalism, and liberation. Similar features will be part of the July charter too, but they will support the political orientation of the students and the leading figures in the interim government.

We don't know whether the BNP will sign the July Proclamation ultimately. But it appears that the charter of July 2024 will be used to bring some sort of legitimacy to the interim government of Prof. Yunus as elections are at least 10 months away and the current administration wants to implement its agenda in the meantime.

**SP:** There is no clarity about the July Proclamation. Who is designing it? What is going to be included in it? The interim government is claiming that the charter is based on consensus with political parties. But how can there be consensus in the current political situation? Basically, these are all things that an unelected government is trying to do. Radical religious groups will try to find more and more legitimacy and space. They will try and get into the political process and claim victories when they are not even contesting with the major political parties of the country. We have seen this happening in Myanmar as well. It will push the country into more and more political turmoil.

**Prof. Yunus also made a passionate argument in favour of the 'humanitarian corridor' to help the Rakhine province of Myanmar. A corridor of this nature has to be demilitarised and if it is demilitarised, who is going to enforce the demilitarised status? Will it be the Bangladesh military or an international force?**

**SSP:** These are the concerns that we have in India and Bangladesh. A humanitarian corridor is generally monitored by the United Nations. And as you said, it sometimes gets demilitarised. The Bangladesh Army chief objected to this

saying international monitoring or enforcement will be interpreted as violation of sovereignty. As a country that sacrificed a large number of human lives to gain independence, sovereignty is a sacred feature of the state.

Second, how can they be sure that the humanitarian aid that is going into Myanmar through the humanitarian corridor will reach only the Rohingya and not armed groups? This issue is of particular importance for us in India as there is no word about who is going to monitor this corridor. There is also no clarity about how this corridor will actually help the Rohingya. There is also concern that the corridor could be used by international armed groups to smuggle weapons into Myanmar and to other destinations, which will have a spillover effect on India.

**The BNP has been unable to take advantage of the situation though it criticised the Yunus government in a major rally on May 28 for delaying elections. Why is the BNP Acting Chairman, Tarique Rahman, not returning to Bangladesh?**

**SSP:** I think there are cases against him, which have not been withdrawn. There are murmurs within the BNP about why the interim government has not withdrawn the cases against Tarique Rahman yet. He has not been able to return as the circumstances are not yet conducive for it. But having said that, since the fall of the Sheikh Hasina government, the BNP has been making the right noises about everything. Despite the absence of Tarique Rahman from Dhaka for nearly 18 years, senior leaders of the standing committee have managed the party very well. There have been many attempts to weaken and break the party over the past several years, including after the interim government took charge, but Tarique Rahman's hold over the party remains evident.

The elections will ultimately determine the future of the BNP, especially the percentage of votes that the BNP will get and also the extent to which the Islamist parties will be accommodated by the voters.

That apart, the National Citizens Party was launched recently by the advisers who were part of the interim government under Prof. Yunus. The BNP has been referring to the NCP as the 'King's Party'. So, there is also fear in the BNP that the interim administration could help the NCP to win certain seats.



To listen to the full interview  
Scan the code or go to the link  
[www.thehindu.com](http://www.thehindu.com)

## Is Bangladesh Slipping into Authoritarianism?

### क्या बांग्लादेश अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है?

On June 7, on the eve of Eid ul Azha, Chief Adviser to the interim government, Dr. Muhammad Yunus, addressed the nation on television and promised elections in April 2026.

7 जून, ईद उल अज़हा की पूर्व संध्या पर, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस ने टेलीविज़न पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए अप्रैल 2026 में चुनाव कराने का वादा किया।

- He also announced the launch of the 'July Proclamation', initially planned by student activists to "bury" the Constitution of Bangladesh due to its connection with Sheikh Mujibur Rahman.

उन्होंने 'जुलाई उद्घोषणा' शुरू करने की भी घोषणा की, जिसे मूल रूप से छात्र कार्यकर्ताओं द्वारा



बांग्लादेश के संविधान को “दफन” करने के लिए योजना बनाई गई थी क्योंकि इसका संबंध शेख मुजीबुर रहमान से है।

- Prof. Yunus stated that this document would contain **reform proposals agreed by all parties** to build a **welfare-oriented state**.  
प्रो. यूनुस ने कहा कि यह दस्तावेज़ सभी दलों द्वारा सहमत सुधार प्रस्तावों को शामिल करेगा ताकि कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके।
- The announcement of **constitutional reforms** by the **interim government** has sparked concerns about the **country's political direction**.  
अंतरिम सरकार द्वारा संविधान संशोधन की घोषणा से देश की राजनीतिक दिशा को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।
- Some observers fear that **democratic progress** has come to a halt.  
कुछ पर्यवेक्षकों को लगता है कि लोकतांत्रिक प्रगति ठप हो गई है।
- **What prompted the aggressive tone in Prof. Yunus's Eid speech?**  
प्रो. यूनुस के ईद भाषण में आक्रामक लहजे का कारण क्या था?
- Prof. Yunus has been under **significant pressure**, especially after the **Army Chief, General Waker-Uz-Zaman**, emphasized that **elections must be held by the end of the year**.  
प्रो. यूनुस पर गंभीर दबाव रहा है, विशेष रूप से जब सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज़-ज़मान ने जोर दिया कि साल के अंत तक चुनाव होने चाहिए।
- Whenever he faces difficulties, he refers to **internal and external threats** and **defeated forces**.  
जब भी वह चुनौतियों का सामना करते हैं, वह आंतरिक और बाहरी खतरों और पराजित ताकतों का हवाला देते हैं।
- The **BNP** criticized the speech, expecting only an Eid greeting, but it turned into a broader political statement.  
बीएनपी ने भाषण की आलोचना की, उसे केवल ईद की शुभकामना की उम्मीद थी, लेकिन वह एक व्यापक राजनीतिक बयान बन गया।
- Prof. Yunus had previously promised **elections in December 2025**, but now appears to be **extending the interim government's term**.  
प्रो. यूनुस ने पहले दिसंबर 2025 में चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह अंतरिम सरकार का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं।

## Nature of the Current Interim Government

### वर्तमान अंतरिम सरकार की प्रकृति

- It is argued that this government is not truly “**interim**”, as such setups are meant to be **short-term** with a **clear election mandate**, like the **1990 caretaker government** with a **90-day limit**.  
यह तर्क दिया जा रहा है कि यह सरकार वास्तव में “अंतरिम” नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्थाएं



स्वल्पकालीन होती हैं और उनका उद्देश्य चुनाव कराना होता है, जैसे 1990 की कार्यवाहक सरकार जिसे 90 दिनों का समय दिया गया था।

- Currently, this **interim government is making constitutional reforms**, which is **undemocratic**, as such decisions are the domain of an **elected government**.  
वर्तमान में, यह अंतरिम सरकार संविधान संशोधन कर रही है, जो कि गैर-लोकतांत्रिक है, क्योंकि ऐसे निर्णय निर्वाचित सरकार द्वारा लिए जाने चाहिए।
- The scale of reform being pursued is **alarming**, and the government keeps **extending its tenure**.  
सुधारों की गति चिंताजनक है और सरकार लगातार अपने कार्यकाल का विस्तार कर रही है।
- With the **Awami League banned** and the **BNP dissatisfied**, political space is being filled by **parties with questionable agendas**.  
आवामी लीग पर प्रतिबंध और बीएनपी असंतुष्ट होने के कारण, राजनीतिक स्थान को संदिग्ध एजेंडा रखने वाले दलों द्वारा भरा जा रहा है।

## Will the July Proclamation Replace the 1972 Constitution?

### क्या जुलाई उद्घोषणा 1972 के संविधान की जगह लेगी?

- There are signs that the **interim government** wants to **move away from the legacy of 1971** and make **July 2024** the starting point of a **new political narrative**.  
संकेत हैं कि अंतरिम सरकार 1971 की विरासत से हटना चाहती है और जुलाई 2024 को नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत बनाना चाहती है।
- **December 16 (Victory Day)** and **August (Mujibur Rahman's assassination)** are historically important, but now **July** is being highlighted.  
**16 दिसंबर (विजय दिवस)** और **अगस्त (शेख मुजीब की हत्या)** ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब **जुलाई** को प्रमुखता दी जा रही है।
- The **BNP** is also uncomfortable with the July Proclamation as it appears to **undermine Sheikh Hasina's leadership**.  
**बीएनपी** भी जुलाई उद्घोषणा को लेकर असहज है क्योंकि यह **शेख हसीना के नेतृत्व को कमजोर** करने वाला प्रतीत होता है।
- The **July Charter** may not **fully replace** the Constitution but could act as a **guiding document** to legitimize the **interim government** until elections.  
**जुलाई चार्टर** संविधान को पूरी तरह से **विस्थापित** नहीं करेगा लेकिन यह **अंतरिम सरकार को वैधता** देने वाला **दस्तावेज़** बन सकता है जब तक चुनाव नहीं हो जाते।
- It is unclear whether the **BNP will support** the proclamation, but the interim government appears ready to **implement its agenda** over the next **10 months**.  
यह स्पष्ट नहीं है कि **बीएनपी इसका समर्थन** करेगी या नहीं, लेकिन अंतरिम सरकार अगले **10 महीनों** में **अपना एजेंडा लागू** करने के लिए तैयार दिख रही है।



## Lack of Clarity on July Proclamation

### जुलाई उद्घोषणा पर स्पष्टता की कमी

- There is currently **no clarity** about the **July Proclamation**—neither regarding who is designing it nor what content it will include. The **interim government** claims that the proposed **charter** is based on a **consensus** with political parties. However, in the present **political situation**, achieving such a consensus seems nearly **impossible**. Essentially, all of this is being carried out by an **unelected government**, which raises serious concerns.

वर्तमान में जुलाई उद्घोषणा को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है—न तो इसे कौन बना रहा है और न ही इसमें क्या शामिल होगा, इसका कोई विवरण है। अंतरिम सरकार का दावा है कि प्रस्तावित चार्टर राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति पर आधारित है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक स्थिति में ऐसी सहमति हासिल करना लगभग असंभव लगता है। मूलतः यह सब कुछ एक गैर-निर्वाचित सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

- **Radical religious groups** are likely to exploit the situation to gain **legitimacy** and space within the political process, even though they are not participating like other **major political parties**. Similar trends have previously been observed in **Myanmar**, and this could push the country into deeper **political turmoil**.

कट्टर धार्मिक समूह इस स्थिति का लाभ उठाकर राजनीतिक वैधता और स्थान हासिल करने की कोशिश करेंगे, जबकि वे अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों की तरह चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही परिदृश्य पहले म्यांमार में देखा जा चुका है, और यह देश को और गहरे राजनीतिक संकट में धकेल सकता है।

## Proposal for a Humanitarian Corridor to Rakhine

### राखाइन में मानवीय कॉरिडोर का प्रस्ताव

- **Prof. Yunus** made a strong plea for the establishment of a **humanitarian corridor** to assist the people of **Rakhine province** in Myanmar. He emphasized that such a corridor must be **demilitarised**, but raised the question of who would enforce this **demilitarised status**—the **Bangladesh military** or an **international force**?

प्रो. यूनुस ने म्यांमार के राखाइन प्रांत के लोगों की सहायता के लिए एक मानवीय कॉरिडोर स्थापित करने की जोरदार वकालत की। उन्होंने यह जोर दिया कि ऐसा कॉरिडोर असैनिकीकृत होना चाहिए, लेकिन यह सवाल भी उठाया कि इस असैन्य स्थिति को लागू कौन करेगा—बांग्लादेश की सेना या कोई अंतरराष्ट्रीय बल?

- **SSP** responded that humanitarian corridors are usually monitored by the **United Nations**, and are sometimes **demilitarised**. However, the **Bangladesh Army chief** has objected to any form of **international monitoring or enforcement**, saying it would be viewed as a **violation of national sovereignty**.

SSP ने जवाब दिया कि मानवीय कॉरिडोर सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी में रखे जाते हैं और



कभी-कभी असैनिकीकृत भी किए जाते हैं। हालांकि, बांग्लादेश सेना प्रमुख ने किसी भी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय निगरानी या प्रवर्तन पर आपत्ति जताई है, यह कहते हुए कि इसे राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा।

- Bangladesh, a nation that sacrificed many lives for its **independence**, views **sovereignty** as a **sacred value**. Additionally, there is no certainty that the aid sent through the corridor will reach only the **Rohingya community** and not fall into the hands of **armed groups**.

बांग्लादेश, जिसने अपनी स्वतंत्रता के लिए अनेक जानें गंवाई हैं, अपनी संप्रभुता को पवित्र मूल्य मानता है। साथ ही यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि इस कॉरिडोर से भेजी गई सहायता केवल रोहिंग्या समुदाय तक पहुंचेगी और सशस्त्र समूहों के हाथ नहीं लगेगी।

- For India, this is a major concern, as there are fears that **international armed groups** could misuse this corridor to **smuggle weapons** into **Myanmar** and even into **other regions**, which may lead to **spillover effects** within Indian territory.

भारत के लिए यह एक गंभीर चिंता है, क्योंकि आशंका है कि अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र समूह इस कॉरिडोर का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे म्यांमार और अन्य क्षेत्रों में हथियारों की तस्करी हो सकती है, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है।

## The BNP and the Absence of Tarique Rahman

### बीएनपी और तारिक रहमान की अनुपस्थिति

- Despite organizing a major rally on **May 28**, where it criticised **Prof. Yunus's government** for delaying elections, the **Bangladesh Nationalist Party (BNP)** has not been able to take full advantage of the political situation.

28 मई को प्रो. यूनस की सरकार की चुनावों में देरी के खिलाफ बड़ी रैली करने के बावजूद, बीएनपी मौजूदा राजनीतिक स्थिति का पूर्ण लाभ उठाने में विफल रही है।

- **SSP** clarified that **Tarique Rahman**, the **acting chairman** of BNP, has not returned to **Bangladesh** because **cases** against him remain **unresolved**. There is some discontent within the BNP over why these cases have not been **withdrawn** by the interim government.

**SSP** ने स्पष्ट किया कि बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान अब तक बांग्लादेश नहीं लौटे हैं क्योंकि उनके खिलाफ मामले अभी भी लंबित हैं। बीएनपी के भीतर यह असंतोष है कि अंतरिम सरकार ने अब तक ये मामले वापस क्यों नहीं लिए हैं।

- Even though **Tarique Rahman** has been away from **Dhaka** for nearly **18 years**, the **senior leadership** of the party has managed its affairs well. Over the years, including under the current interim government, multiple attempts have been made to **weaken or break** the party. However, his **influence** and **control** over BNP remain **strong**.

हालांकि तारिक रहमान लगभग 18 वर्षों से ढाका से बाहर हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन को अच्छी तरह से संभाला है। वर्षों से, और विशेष रूप से अंतरिम सरकार के दौरान, पार्टी को कमज़ोर या तोड़ने के कई प्रयास हुए हैं। फिर भी, पार्टी पर उनका प्रभाव और नियंत्रण मजबूत बना हुआ है।



- Ultimately, the **BNP's future** will be determined by the **election results**, including its **vote share** and the extent to which the **Islamist parties** are accommodated by the electorate.

अंततः, बीएनपी का भविष्य चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा, जिसमें इसका वोट प्रतिशत और यह कि इस्लामी दलों को मतदाताओं द्वारा किस हद तक स्वीकार किया जाता है, शामिल हैं।

## Launch of the National Citizens Party (NCP)

### नेशनल सिटीज़न्स पार्टी (एनसीपी) की शुरुआत

- In a recent development, advisers from the **interim government** under **Prof. Yunus** launched a new political outfit—the **National Citizens Party (NCP)**.  
हाल ही में, प्रो. यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सलाहकारों ने एक नया राजनीतिक दल शुरू किया — नेशनल सिटीज़न्स पार्टी (एनसीपी)।
- The **BNP** has labeled this new party as the '**King's Party**', implying that it may receive **special support** from the interim administration.  
बीएनपी ने इस नई पार्टी को 'राजा की पार्टी' कहा है, जो यह दर्शाता है कि इसे अंतरिम सरकार से विशेष समर्थन मिल सकता है।
- There is a prevailing fear within the **BNP** that the interim government may **manipulate the elections** to help the **NCP** secure **parliamentary seats**.  
बीएनपी के भीतर यह आशंका है कि अंतरिम सरकार चुनावों में हेरफेर कर सकती है ताकि एनसीपी को सांसदीय सीटें जिताई जा सकें।



# IAEA board censures Iran for not complying with nuclear obligations

The **Atomic Energy Organization of Iran** and the Foreign Ministry state that Tehran has 'no choice but to respond to this political resolution'; U.S. embassy in Jerusalem restricts staff movements due to security concerns amid heightened tensions

ISS Paper II: IR

**Associated Press**  
**Agence France-Presse**  
VIENNA/WASHINGTON

**T**he UN nuclear watchdog's board of governors on Thursday formally found that Iran is not complying with its nuclear obligations for the first time in 20 years, a move that could lead to further tensions and set in motion an effort to restore UN sanctions on Tehran later this year.

Iran reacted immediately, saying it will establish a new enrichment facility "in a secure location" and that "other measures are also being planned".

"The Islamic Republic of

Iran has no choice but to respond to this political resolution," the Iranian Foreign Ministry and the Atomic Energy Organization of Iran said in a joint statement. U.S. President Donald Trump previously warned that Israel or America could carry out air strikes targeting Iranian nuclear facilities if negotiations failed to reach an agreement – and some American personnel and their families have begun leaving the region over the tensions, which come ahead of a new round of Iran-U.S. talks Sunday in Oman.

Nineteen countries on the International Atomic



**Tense presence:** Armoured vehicles deployed outside the U.S. embassy building in Baghdad's Green Zone on Thursday. AFP

Energy Agency's board, which represents the agency's member nations, voted for the resolution, according to diplomats who spoke on condition of ano-

nymity to describe the outcome of the closed-doors vote. Russia, China and Burkina Faso opposed it, 11 abstained and two did not vote.

The resolution was put forward by France, the U.K., Germany and the U.S.

**Dangerous region**  
Meanwhile, the U.S. embassy in Jerusalem announced it was restricting staff movements after President Donald Trump said U.S. personnel were being moved from the potentially "dangerous" West Asia.

"Due to the increased regional tensions, United States government employees and their family members are restricted from travel outside the greater Tel Aviv (area)... Jerusalem, and Be'er Sheva areas until further notice," the embassy said.

## IAEA Board Censures Iran for Nuclear Non-Compliance

### परमाणु दायित्वों का पालन न करने पर ईरान की IAEA बोर्ड द्वारा निंदा

The UN nuclear watchdog's board of governors on Thursday formally declared that Iran is not complying with its nuclear obligations for the first time in 20 years. संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था की गवर्नर्स बोर्ड ने गुरुवार को औपचारिक रूप से घोषणा की कि ईरान पिछले 20 वर्षों में पहली बार अपने परमाणु दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है।

- This move could lead to **further tensions** and possibly **restoration of UN sanctions** on **Tehran** later this year.  
इस कदम से तनाव और बढ़ सकता है और वर्ष के अंत में तेहरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
- **Iran** immediately responded, announcing plans to build a **new enrichment facility** "in a secure location", and stated that "**other measures are also being planned**".  
ईरान ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए घोषणा की कि वह एक "सुरक्षित स्थान" पर नई संवर्धन सुविधा स्थापित करेगा और कहा कि "अन्य कदम भी योजना में हैं"।
- In a joint statement, **Iran's Foreign Ministry** and the **Atomic Energy Organization of Iran** said the country has "**no choice but to respond to this political resolution.**"



ईरान के विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा संगठन ने संयुक्त बयान में कहा कि देश के पास “इस राजनीतिक प्रस्ताव का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है”।

- **U.S. President Donald Trump** had earlier warned that **air strikes** could be carried out by Israel or the U.S. on Iranian nuclear sites if talks fail.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर बातचीत विफल होती है, तो इज़राइल या अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किए जा सकते हैं।

- Amid growing tensions, some **American personnel and their families** have started **leaving the region**, ahead of new Iran-U.S. talks on **Sunday in Oman**.

बढ़ते तनाव के बीच, कुछ अमेरिकी कर्मियों और उनके परिवारों ने रविवार को ओमान में होने वाली ईरान-अमेरिका वार्ता से पहले क्षेत्र छोड़ना शुरू कर दिया है।

- **Nineteen countries** on the **IAEA board** voted in favor of the resolution.

IAEA बोर्ड के उन्नीस देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

- **Russia, China, and Burkina Faso** voted against it; **11 countries abstained** and **2 did not vote**.

रूस, चीन, और बुर्किना फासो ने विरोध में मतदान किया, जबकि 11 देशों ने मतदान से परहेज़ किया और 2 देशों ने मतदान नहीं किया।

- The resolution was introduced by **France, the U.K., Germany, and the U.S.**

यह प्रस्ताव फ्रांस, यू.के., जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पेश किया गया था।

- **U.S. Embassy Restricts Staff Movements in Jerusalem**

जेरूसलम में अमेरिकी दूतावास ने स्टाफ की आवाजाही पर रोक लगाई

- The **U.S. Embassy in Jerusalem** announced **movement restrictions** for its **employees and their families**, citing **security concerns**.

जेरूसलम स्थित अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा चिंताओं के चलते अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

- Staff are restricted from **traveling outside** the **Tel Aviv, Jerusalem, and Be'er Sheva** areas **until further notice**.

कर्मचारियों को तेल अवीव, जेरूसलम, और बेयर शेवा क्षेत्रों से बाहर यात्रा करने से तब तक रोका गया है, जब तक कि अगली सूचना न आए।



# Thousands join rally in Georgia after activist jailed over pro-Europe protest

GS Paper II

Agence France-Presse

TBILISI

Thousands rallied on Thursday in Georgia after a youth activist was jailed for four and a half years for assaulting police during pro-Europe protests as authorities intensify a crackdown on dissent.

Georgia has been in political turmoil since disputed parliamentary elections in October triggered protests against what demonstrators call the government's authoritarian drift in favour of Russia and against the European Union.



**Civic unrest:** Georgian Opposition supporters rally in downtown Tbilisi on May 26, Georgia's Independence Day. AFP

Tbilisi city court convicted 21-year-old musician and activist Mate Devidze of assaulting police with a stick on November 19 as officers dispersed an anti-go-

vernment rally.

Later on Thursday, several thousand protesters marched through the streets of Tbilisi chanting "Freedom to Mate!" before

setting up camps at a key intersection in the Georgian capital.

Mr. Devidze, who had denied wrongdoing, said he had been participating in the protests "to peacefully express opposition to [Georgia's] straying from the EU course".

He accused the judge of carrying out government "orders" and left the court without hearing the verdict.

The sentencing follows a wave of arrests and trials targeting Opposition leaders and activists, with more verdicts expected in the coming weeks.

## Thousands Join Rally in Georgia After Activist Jailed Over Pro-Europe Protest

यूरोप समर्थक प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद जॉर्जिया में हजारों लोगों ने रैली निकाली

Thousands of people rallied on Thursday in Georgia after a youth activist was sentenced to four and a half years in prison for assaulting police during pro-Europe protests.

गुरुवार को जॉर्जिया में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया जब एक युवा कार्यकर्ता को यूरोप समर्थक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस पर हमला करने के आरोप में चार साल छह महीने की सजा सुनाई गई।

- Authorities are intensifying a **crackdown on dissent**, leading to widespread anger. सरकार द्वारा विरोधों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे व्यापक आक्रोश फैल रहा है।
- **Georgia** has been in **political turmoil** since the **October parliamentary elections**, which were marred by **disputes** and led to protests against the government's **authoritarian drift**.

जॉर्जिया में अक्टूबर में हुए संसदीय चुनावों के बाद से राजनीतिक संकट जारी है, जब चुनावों में विवाद और सरकार की सत्तावादी प्रवृत्ति के खिलाफ प्रदर्शन हुए।



- Protesters accuse the government of moving closer to Russia and away from the European Union.  
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार रूस के करीब जा रही है और यूरोपीय संघ से दूर हो रही है।
- Tbilisi city court convicted 21-year-old musician and activist Mate Devidze for assaulting police with a stick on November 19, during an anti-government rally.  
त्बिलिसी शहर की अदालत ने 21 वर्षीय संगीतकार और कार्यकर्ता माते डेविडजे को 19 नवंबर को सरकार विरोधी रैली के दौरान लाठी से पुलिस पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया।
- Later on Thursday, several thousand protesters marched through the streets of Tbilisi, chanting "Freedom to Mate!", and set up camps at a major intersection.  
गुरुवार को बाद में हजारों प्रदर्शनकारियों ने त्बिलिसी की सड़कों पर मार्च निकाला, "माते को आज़ादी!" के नारे लगाए, और एक मुख्य चौराहे पर डेरा डाला।
- Mate Devidze denied any wrongdoing and said he joined the protest to peacefully express opposition to Georgia's departure from the EU course.  
माते डेविडजे ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और कहा कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने के लिए प्रदर्शन में भाग लिया, क्योंकि जॉर्जिया यूरोपीय मार्ग से भटक रहा है।
- He accused the judge of following government orders and left the courtroom without hearing the verdict.  
उन्होंने जज पर सरकारी आदेशों का पालन करने का आरोप लगाया और फैसला सुने बिना अदालत छोड़ दी।
- The sentencing comes amid a wave of arrests and trials targeting opposition leaders and activists, with more verdicts expected in the coming weeks.  
यह सजा विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर की जा रही गिरफ्तारियों और मुकदमों की लहर के बीच आई है, और आगामी हफ्तों में और फैसले आने की संभावना है।

## China-backed militia secures control of new rare earth mines in Myanmar

Reuters  
BANGKOK

A Chinese-backed militia is protecting new rare earth mines in eastern Myanmar, according to four people familiar with the matter, as Beijing moves to secure control of the minerals it is wielding as a bargaining chip in its trade war with Washington.

China has a near-monopoly over the processing of heavy rare earths into magnets that power critical goods like wind turbines, medical devices and electric vehicles. But Beijing is heavily reliant on Myanmar for the rare earth metals and oxides needed to produce them: the war-torn country was the source of nearly half those imports in the first four

months of this year, Chinese customs data show. Beijing's access to fresh stockpiles of minerals like dysprosium and terbium has been throttled recently after a major mining belt in Myanmar's north was taken over by an armed group battling the Southeast Asian country's junta, which Beijing supports.

Now, in the hillsides of Shan state in eastern Myanmar, Chinese miners are opening new deposits for extraction, according to two of the sources. At least 100 people are working day-to-night shifts excavating hillsides and extracting minerals. Two other residents of the area said they had witnessed trucks carrying material from the mines, between the towns of Mong Hsat and Mong

Yun, toward the Chinese border some 200km away.

**UWSA's protection**  
The mines operate under the protection of the United Wa State Army, sources said.

The UWSA, which is among the biggest armed groups in Shan state, also controls one of the world's largest tin mines. It has long-standing commercial and military links with China, according to the U.S. Institute of Peace, a conflict resolution non-profit.

University of Manchester lecturer Patrick Meehan, who has closely studied Myanmar's rare earth industry and reviewed satellite imagery of the Shan mines, said the "mid-large size" sites appeared to be the first significant facilities



**Under watch:** United Wa State Army soldiers march in Pansang, Wa territory in northeast Myanmar. FILE PHOTO

in the country outside the Kachin region in the north.

"There is a whole belt of rare earths that goes down through Kachin, through Shan, parts of Laos," he said.

China's Foreign Ministry said in response to Reuters' questions that Chinese

Trump resumed his trade war with China this year. While China appears to have recently approved more exports and Mr. Trump has signalled progress in resolving the dispute, the move has upended global supply chains central to automakers, aerospace manufacturers and semiconductor companies.

The price of terbium oxide has jumped by over 27% across the last six months, Shanghai Metals Market data show. Dysprosium oxide prices have fluctuated sharply, rising around 1% during the same period.

**Chinese influence**

A prominent circular clearing first appears in the forested hills of Shan state,

some 30 km away from the Thai border, in April 2023, according to the satellite images reviewed by Reuters.

By February 2025 - shortly after the Kachin mines suspended work - the site housed over a dozen leaching pools, which are ponds typically used to extract heavy rare earths, the images showed.

Six km away, across the Kok river, another forest clearing was captured in satellite imagery from May 2024. Within a year, it had transformed into a facility with 20 leaching pools.

Minerals analyst David Merriman said the infrastructure at the Shan mines, as well as the observable erosion levels to the topography, indicated that the facilities "have been

producing for a little bit already."

At least one of the mines is run by a Chinese company, according to the two mine workers and two members of the Shan Human Rights Foundation, an advocacy group.

The use of Chinese operators in the Shan mines and transportation of the output to China mirrors a similar system in Kachin, where entire hillsides stand scarred by leaching pools.

Chinese mining firms can produce heavy rare earth oxides in low-cost and loosely regulated Myanmar seven times cheaper than in other regions with similar deposits, said Neha Mukherjee of London-based Benchmark Mineral Intelligence.



## China-backed Militia Secures Control of New Rare Earth Mines in Myanmar

म्यांमार में चीन समर्थित मिलिशिया ने नए रेयर अर्थ खदानों पर नियंत्रण किया

A Chinese-backed militia is now protecting new rare earth mines in eastern Myanmar, as Beijing moves to secure its control over critical minerals amid a trade war with Washington.

चीन समर्थित मिलिशिया अब म्यांमार के पूर्वी क्षेत्र में नई रेयर अर्थ खदानों की सुरक्षा कर रहा है, क्योंकि बीजिंग अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध के बीच महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

- China holds a **near-monopoly** in processing **heavy rare earths** into magnets, which are used in **wind turbines, medical devices, and electric vehicles**.  
चीन के पास हैवी रेयर अर्थ को चुंबकों में बदलने की प्रक्रिया पर लगभग एकाधिकार है, जिनका उपयोग पवन टर्बाइनों, चिकित्सा उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है।
- However, **Beijing** depends heavily on **Myanmar** for the **rare earth metals and oxides** needed for this process.  
हालांकि, **बीजिंग** को इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक रेयर अर्थ धातुओं और ऑक्साइडों के लिए म्यांमार पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है।
- In the **first four months of this year**, Myanmar supplied **nearly half** of China's **rare earth imports**, according to **Chinese customs data**.  
इस वर्ष के पहले चार महीनों में म्यांमार ने चीन की रेयर अर्थ आयात का लगभग आधा हिस्सा आपूर्ति किया, चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार।
- Access to these minerals was disrupted after a **major mining belt** in **northern Myanmar** was seized by an **armed group** fighting the **junta**, which **Beijing** supports.  
इन खनिजों तक पहुंच तब बाधित हो गई जब म्यांमार के उत्तर में स्थित एक प्रमुख खनन क्षेत्र पर सैन्य शासन से लड़ रहे एक सशस्त्र समूह ने कब्जा कर लिया, जिसे बीजिंग समर्थन करता है।
- Now, **Chinese miners** are opening **new deposits** in the **hillsides of Shan State**, in **eastern Myanmar**, according to two sources.  
अब, चीन के खनिक म्यांमार के पूर्वी हिस्से के शान राज्य की पहाड़ियों में नई खदानें खोल रहे हैं, दो स्रोतों के अनुसार।
- At least **100 workers** are engaged in **day-to-night shifts** to excavate hillsides and extract **rare earth minerals**.  
कम से कम 100 श्रमिक दिन-रात की शिफ्टों में काम कर रहे हैं ताकि पहाड़ियों की खुदाई कर रेयर अर्थ खनिज निकाले जा सकें।



- Two residents confirmed seeing **trucks transporting material** from the mines between **Mong Hsat and Mong Yun**, toward the **Chinese border**, around **200 km away**.  
दो स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने **खनन सामग्री ले जाते ट्रकों को मोंग हसट और मोंग युन के बीच चीनी सीमा की ओर जाते देखा**, जो लगभग **200 किमी दूर** है।

## UWSA's Protection

### यूडब्ल्यूएसए की सुरक्षा में खनन कार्य

- The mines operate under the **protection of the United Wa State Army (UWSA)**, according to sources.  
सूत्रों के अनुसार, ये खदानें **यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी (यूडब्ल्यूएसए)** की सुरक्षा में संचालित हो रही हैं।
- The **UWSA** is one of the **largest armed groups** in **Shan State** and also controls one of the **world's biggest tin mines**.  
यूडब्ल्यूएसए, शान राज्य का एक सबसे बड़ा सशस्त्र समूह है और यह दुनिया की सबसे बड़ी टिन खदानों में से एक पर भी नियंत्रण रखता है।
- It has long-standing **military and commercial ties** with **China**, as noted by the **U.S. Institute of Peace**.  
इसके चीन के साथ लंबे समय से सैन्य और व्यावसायिक संबंध हैं, जैसा कि यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस द्वारा बताया गया है।
- **University of Manchester** lecturer **Patrick Meehan**, who studied **Myanmar's rare earth industry**, said the **mid-to-large-sized sites** in **Shan** seem to be the **first major facilities outside the Kachin region**.  
मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पैट्रिक मिहान, जिन्होंने म्यांमार के रेयर अर्थ उद्योग का अध्ययन किया है, ने कहा कि शान राज्य में मध्यम से बड़े आकार की साइटें काचिन क्षेत्र के बाहर की पहली बड़ी सुविधाएं प्रतीत होती हैं।
- He added that there is a **belt of rare earths** stretching from **Kachin**, through **Shan**, into parts of **Laos**.  
उन्होंने कहा कि काचिन से शुरू होकर शान और लाओस के कुछ हिस्सों तक रेयर अर्थ खनिजों की एक पूरी पट्टी फैली हुई है।

## China's Growing Role in Myanmar Rare Earth Mining

### म्यांमार में रेयर अर्थ खनन में चीन की बढ़ती भूमिका

- **China's Foreign Ministry** stated that Chinese firms operating abroad must "**abide by local laws and regulations**" and "**fulfil their social responsibilities.**"  
चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेशों में काम कर रही चीनी कंपनियों को स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए।
- **Beijing's access to rare earths** is becoming **increasingly important**, especially after **U.S. President Donald Trump** resumed his **trade war** with **China** this year.



बीजिंग के लिए रेयर अर्थ तक पहुंच दिन-प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है, खासकर जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ष चीन के साथ व्यापार युद्ध फिर से शुरू किया।

- In response, **China tightened export restrictions on metals and magnets**, disrupting international supply chains.

इसके जवाब में, चीन ने धातुओं और मैग्नेट के निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगाए, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुईं।

- Although China has **recently approved more exports** and **Mr. Trump** has indicated progress in the dispute, the situation has **upended global supply chains** vital to **automotive, aerospace, and semiconductor industries**.

हालांकि चीन ने हाल ही में निर्यात की अधिक मंजूरी दी है और ट्रंप ने विवाद के समाधान में प्रगति के संकेत दिए हैं, फिर भी इस स्थिति ने ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस और सेमीकंडक्टर उद्योगों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है।

- The **price of terbium oxide** has risen by over **27%** in the past **six months**, according to **Shanghai Metals Market** data.

शंघाई मेटल्स मार्केट के आंकड़ों के अनुसार, टेरबियम ऑक्साइड की कीमत पिछले 6 महीनों में 27% से अधिक बढ़ गई है।

- **Dysprosium oxide prices** have fluctuated but still rose by around **1%** during the same period.

डिसप्रोसियम ऑक्साइड की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है, लेकिन उसी अवधि में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई है।

## Chinese Presence in Shan State Mines

### शान राज्य की खदानों में चीनी उपस्थिति

- In **April 2023**, a **prominent circular clearing** appeared in the **forested hills of Shan State**, about **30 km** from the **Thai border**, as per **satellite images**.

अप्रैल 2023 में, शान राज्य की वनाच्छादित पहाड़ियों में एक प्रमुख वृत्तीय खाली क्षेत्र दिखाई दिया, जो थाई सीमा से लगभग 30 किमी दूर है, उपग्रह चित्रों के अनुसार।

- By **February 2025**, after **Kachin mines** halted operations, this site had developed over **a dozen leaching pools**—used to **extract heavy rare earths**, as seen in satellite data.

फरवरी 2025 तक, जब काचिन की खदानों ने काम रोक दिया था, उस क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक लीचिंग पूल बन चुके थे, जो हैवी रेयर अर्थ निकासी के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसा कि उपग्रह चित्रों से पता चलता है।

- Another **forest clearing** located **6 km away**, across the **Kok river**, was visible in **May 2024**. Within a year, it became a site with **20 leaching pools**.

एक और वन क्षेत्र का समतलीकरण जो कोक नदी के उस पार 6 किमी दूर था, मई 2024 में देखा गया। एक साल में वह 20 लीचिंग पूल वाला स्थल बन गया।

- At least **one of the mines** is operated by a **Chinese company**, confirmed by **two mine workers** and **two members of the Shan Human Rights Foundation**.



कम से कम एक खदान का संचालन एक चीनी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, इसकी पुष्टि दो खनिकों और शान मानवाधिकार संगठन के दो सदस्यों ने की।

- The use of Chinese operators and the transportation of output to China in Shan resembles the same system used in Kachin, where hillsides were damaged by leaching pools.

शान में चीनी संचालकों का उपयोग और खनिजों की चीन को ढुलाई उसी प्रणाली के समान है जो काचिन में अपनाई गई थी, जहां लीचिंग पूलों ने पहाड़ियों को नुकसान पहुँचाया।

- Chinese companies can extract heavy rare earth oxides in Myanmar at seven times lower cost than in other regulated regions with similar deposits, said Neha Mukherjee of Benchmark Mineral Intelligence.

बेंचमार्क मिनरल इंटेलिजेंस की नेहा मुखर्जी के अनुसार, चीनी कंपनियां म्यांमार में हैवी रेयर अर्थ ऑक्साइड का सात गुना कम लागत पर निष्कर्षण कर सकती हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में यही प्रक्रिया अधिक महंगी और नियमबद्ध होती है।

## Signs of Industrial Activity in Shan Region

### शान क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के संकेत

- Minerals analyst David Merriman observed that the infrastructure and visible erosion in the Shan mines indicate that these are significant-scale facilities.

खनिज विश्लेषक डेविड मेरिमन ने देखा कि शान की खदानों में मौजूद बुनियादी ढांचे और दृश्य अपरदन से पता चलता है कि ये महत्वपूर्ण पैमाने की इकाइयाँ हैं।

## GS Paper III: Economy, S&T, Environment, DM, IS)

1. AI flight with 242 on board crashes in Ahmedabad  
अहमदाबाद में 242 यात्रियों वाला एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त
2. Retail Inflation Eases to Six-Year Low of 2.8% in May  
मई में खुदरा महंगाई छह साल के निचले स्तर 2.8% पर
3. Study Finds How Genes Influence Symptoms of Mental Disorders



अध्ययन में पाया गया कि कैसे जीन मानसिक विकारों के लक्षणों को प्रभावित करते हैं

**4. May Was the World's Second Warmest on Record, EU Scientists Say**

ईयू वैज्ञानिकों के अनुसार, मई रहा दुनिया का दूसरा सबसे गर्म महीना रिकॉर्ड पर

**5. Science Behind Right AC Temperature**

सही एसी तापमान के पीछे का विज्ञान

**6. Reclaiming the Golden Hour: How technology can help beat traffic and save lives**

गोल्डन आवर की पुनर्प्राप्ति: कैसे तकनीक ट्रैफिक को मात देकर जीवन बचा सकती है

**7. A Good Fix: Measures to Curb Agent, Bot Booking on IRCTC**

एक अच्छा सुधार: आईआरसीटीसी पर एजेंटों और बॉट बुकिंग को रोकने के उपाय

**8. Urbanisation and the Challenge of Ideal Transit Solutions**

शहरीकरण और आदर्श ट्रांजिट समाधान की चुनौती

**9. Moody's Downgrade and U.S. Fiscal Reality**

मूडीज़ की डाउनग्रेड और अमेरिका की राजकोषीय वास्तविकता



# AI flight with 242 on board crashes in Ahmedabad

London-bound Boeing 787 aircraft crashes into medical college complex after take-off | Pilot issues 'Mayday' alert soon after take-off, goes silent before the crash | Several casualties feared on the ground with official count of those killed awaited | One passenger survives miraculously; he was identified as a British national

Jagrati Chandra  
AHMEDABAD

An Air India flight from Ahmedabad to London, carrying 230 passengers and 12 crew members, crashed shortly after take-off on Thursday afternoon. A towering plume of smoke was visible from afar following a massive explosion after the aircraft plummeted into a medical college hostel five kilometres from the airport as students were gathered for lunch.

Barring one passenger who survived miraculously, no one aboard the aircraft could be rescued.

The Boeing 787-8 aircraft took off from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad at 1:38 p.m. and was headed to Gatwick Airport in London. Immediately after take-off, it crashed in the residential area of Meghani Nagar.

**Fast turn of events**  
According to CCTV footage captured by the CISE, the aircraft crashed under 40 seconds of being airborne. The aircraft was steered by pilot-in-command Sumit Sabharwal and co-pilot Olive Kinder. Government sources said the pilots gave a 'Mayday' call immediately after take-off, signalling a life-threatening emergency, but did not respond to subsequent calls made by the airport traffic control.

According to Air India, of the 230 passengers, 169

## Tragedy on take-off

Air India flight AI-171 crashed shortly after taking off from the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport at 1:38 p.m. on Thursday



The crash marks the first deadly incident involving an aircraft from the Boeing 787 Dreamliner series

Passengers in AI 171

169 Indians  
41,000 hours  
The aircraft that crashed on Thursday was nearly 12 years old with more than 41,000 hours of flying time

It had its first flight in December 2013 and was delivered to Air India in January 2014

The aircraft had almost 8,000 take-offs and landings, including some 700 cycles in the past 12 months

There are 1,148 Boeing 787 variants in service globally, with an average age of 7.5 years

33 Air India presently has 33 Boeing 787 Dreamliner variants in service after Thursday's crash

2,598 Dreamliners have been ordered by more than 40 airlines around the world

**Fatal flight:** The tail of the Air India flight 171 protruding out of the hostel mess of B.J. Medical College in Ahmedabad on Thursday

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heart-breaking beyond words

**NARENDRA MODI**  
Prime Minister



Emergency response team at the site of the crash on Thursday. PHOTOS: VIJAY SONEJI



were Indians, 53 British, and seven Portuguese. One was Canadian.

**Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani was among the dead.**

Thursday's crash is the first involving a variant of the Boeing 787 Dreamliner series.

Union Home Minister Amit Shah, who met the sole survivor of the crash in hospital, said none of the other people on board could be saved. "Due to the huge amount of fuel at 1.25 lakh litres and high temperature from the explosion, no one could be res-

cued," he said. The Press Trust of India identified the survivor as Vishwashankar Ramesh, a LUK citizen travelling in the A11 seat of the aircraft, heading to London with his brother.

Mr. Shah said that the process of retrieving bodies was almost complete, and that the official death toll would be released after DNA samples are matched and all bodies are identified.

The search was also on for the aircraft's black box for clues to understand what happened in the last crucial moments of flight.

As many as 265 bodies were brought to civil hospital in Ahmedabad. Deputy Commissioner of Police Kanan Desai told presspersons, suggesting that 24 people on the ground were killed in the crash.

Air India and Tata Sons Chairman N. Chandrabosekaran said the Tata Group would provide ₹1 crore to the families of each person who lost their life in the tragedy.

Air India is also organising two relief flights, one each from Delhi and Mumbai, to Ahmedabad for the next of kin of passengers

and Air India staff.

Air India CEO Campbell Wilson said the airline was actively working with relevant authorities on the emergency response and a special team of caregivers was being despatched to Ahmedabad to provide additional support.

**PM in Ahmedabad**  
"We will also cover the medical expenses of those injured and ensure that they receive all necessary care and support. Additionally, we will provide support in the building up of the B.J. Medical's hos-

tel," an official statement said.

Shortly after the crash, Prime Minister Narendra Modi spoke to Union Minister of Civil Aviation Ramohan Naidu, who reached the accident site in the evening.

Investigating teams from the Directorate General of Civil Aviation and the Aircraft Accidents Investigation Bureau also arrived in Ahmedabad later in the day.

**MORE REPORTS ON**  
» PAGES 5 & 6

## Rupani's trip to meet his family in U.K. turns fatal

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI

Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani, 69, was among those who perished in the crash of Air India flight AI-171, Union Jai Shakti Minister C.R. Paatil confirmed on Thursday.

The Union Minister declared the loss as one "deeply felt by the

BJP family". Rupani, who held the post of Chief Minister of Gujarat between 2016 and 2021 in two terms before being replaced by the current Chief Minister Bhupendra Patel, was en route to London to join his wife and other members of his family.

Mr. Rupani declared his retirement from electoral politics just before the 2022 election.



**FULL REPORT ON**  
» PAGE 5

## At least 5 MBBS students killed, says medical body

**Press Trust of India**  
NEW DELHI

At least five MBBS students, one PG resident doctor and the wife of a superspecialist doctor of the B.J. Medical College in Ahmedabad were killed and over 60 medical students injured Air India plane crashed into after residential quarters of the B.J. Medical college on Thursday, the Federation of All India Medical Association said.

Over 100 MBBS students were having lunch in the



Rescue efforts ongoing at the crash site. VIJAY SONEJI

mess when the flight crashed into the building.

**STUDENTS MISSING**  
» PAGE 5

## AI flight with 242 on board crashes in Ahmedabad

### अहमदाबाद में 242 यात्रियों वाला एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त

A London-bound Air India flight from Ahmedabad, carrying 230 passengers and 12 crew members, crashed shortly after take-off on Thursday afternoon.

अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान, जिसमें 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य थे, गुरुवार दोपहर उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

- The aircraft crashed into a medical college hostel complex, five kilometres from the airport, where students were gathered for lunch.
- विमान हवाई अड्डे से पाँच किलोमीटर दूर एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल परिसर में दोपहर के भोजन के दौरान छात्रों की उपस्थिति में गिरा।
- A massive explosion followed the crash, and a towering plume of smoke was visible from afar.
- दुर्घटना के बाद भयंकर विस्फोट हुआ और धुएँ का एक बड़ा गुबार दूर से दिखाई दिया।
- Only one passenger survived the crash miraculously; the rest on board could not be rescued.

इस दुर्घटना में केवल एक यात्री चमत्कारिक रूप से बचा; विमान में बाकी कोई भी बचाया नहीं जा सका।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The **Boeing 787-8 aircraft** took off from **Sardar Vallabhbhai Patel International Airport** at **1.38 p.m.** and crashed in **Meghani Nagar**, a residential area.  
यह बोइंग 787-8 विमान ने दोपहर 1:38 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी और मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

## Fast turn of events

### घटना की तीव्र गति

- According to **CCTV footage by CISF**, the aircraft crashed **within 40 seconds** of being airborne.  
CISF द्वारा प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, विमान हवा में उठने के केवल 40 सेकंड के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
- The aircraft was piloted by **Sumit Sabharwal** (pilot-in-command) and **Clive Kunder** (co-pilot).  
विमान के प्रमुख पायलट सुमित सभरवाल और सह-पायलट क्लाइव कुंदर थे।
- The pilots issued a **'Mayday' call** immediately after take-off, indicating a **life-threatening emergency**, but did not respond to **further communication**.  
उड़ान भरने के तुरंत बाद पायलटों ने 'मेडे' कॉल दी, जो कि जानलेवा आपात स्थिति का संकेत था, लेकिन उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

## Passenger details

### यात्रियों का विवरण

- Of the **230 passengers**, **169 were Indians**, **53 British**, **7 Portuguese**, and **1 Canadian**.  
230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, और 1 कनाडाई नागरिक थे।
- **Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani** was among the deceased.  
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मृतकों में शामिल थे।

## Aircraft details and significance

### विमान का विवरण और महत्व

- This is the **first crash involving a Boeing 787 Dreamliner variant**.  
यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर संस्करण की पहली दुर्घटना है।

## Rescue efforts and statements

### बचाव कार्य और बयान

- **Union Home Minister Amit Shah** visited the sole survivor in the hospital and stated that **no one else could be saved** due to **1.25 lakh litres of fuel** and the **intense heat** from



the explosion.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल में एकमात्र बचे यात्री से मुलाकात की और बताया कि 1.25 लाख लीटर ईंधन और विस्फोट की अत्यधिक गर्मी के कारण कोई और नहीं बचाया जा सका।

- The survivor was identified as Viswashkumar Ramesh, a U.K. citizen, seated on A11, who was travelling to London with his brother.

बचे यात्री की पहचान विश्वाशकुमार रमेश के रूप में हुई, जो यू.के. नागरिक हैं और A11 सीट पर बैठे थे, अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे।

- Mr. Shah said that **retrieval of bodies** was almost complete, and the **official death toll** would be released after **DNA matching and identification**.

श्री शाह ने कहा कि शवों की निकासी लगभग पूरी हो गई है और डीएनए मिलान और पहचान के बाद आधिकारिक मौतों का आंकड़ा जारी किया जाएगा।

- Authorities are still searching for the **black box** to understand the **final moments** before the crash.

अधिकारी अभी भी ब्लैक बॉक्स की तलाश कर रहे हैं ताकि दुर्घटना से पहले के अंतिम क्षणों की जानकारी मिल सके।

## Post-Crash Developments and Relief Efforts

### दुर्घटना के बाद की घटनाएँ और राहत प्रयास

- As many as **265 bodies** were brought to **Civil Hospital in Ahmedabad**, according to **Deputy Commissioner of Police Kanan Desai**, indicating that **24 people on the ground** were killed in the crash.

उप पुलिस आयुक्त कानन देसाई के अनुसार, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कुल 265 शव लाए गए, जो यह दर्शाते हैं कि दुर्घटना में ज़मीन पर 24 लोगों की मौत हुई।

- **Air India and Tata Sons Chairman N. Chandrasekaran** announced that the **Tata Group** would provide **₹1 crore** to the families of **each deceased person** in the tragedy. एयर इंडिया और टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने घोषणा की कि टाटा समूह इस त्रासदी में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को ₹1 करोड़ की सहायता देगा।

- **Air India** is also organising **two relief flights**, one each from **Delhi and Mumbai** to **Ahmedabad**, for the **next of kin** of passengers and **Air India staff**.

एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से अहमदाबाद के लिए दो राहत उड़ानों का आयोजन कर रही है, जो यात्रियों और एयर इंडिया कर्मचारियों के परिजनों को लाएंगी।

- **Air India CEO Campbell Wilson** stated that the airline was **actively coordinating** with relevant authorities for the **emergency response**, and a **special team of caregivers** was being sent to Ahmedabad for **additional support**.

एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने बताया कि एयरलाइन आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है और अतिरिक्त सहायता के लिए देखभालकर्ताओं की एक विशेष टीम अहमदाबाद भेजी जा रही है।



## PM's Visit and Government Measures

### प्रधानमंत्री की यात्रा और सरकारी उपाय

- An **official statement** said that the government would **cover the medical expenses** of those **injured** and ensure they **receive all necessary care and support**.  
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सरकार घायलों के इलाज का खर्च वहन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें सभी आवश्यक देखभाल और सहायता मिले।
- The government would also support the **rebuilding of the B.J. Medical's hostel**, which was affected in the crash.  
सरकार बी.जे. मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पुनर्निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगी, जो दुर्घटना में प्रभावित हुआ।
- **Prime Minister Narendra Modi**, shortly after the crash, **spoke to Union Civil Aviation Minister Rammohan Naidu**, who **visited the crash site** in the evening.  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना के तुरंत बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की, जो शाम को दुर्घटनास्थल पर पहुंचे।

## Investigation Begins

### जांच की शुरुआत

- **Investigating teams** from the **Directorate General of Civil Aviation (DGCA)** and the **Aircraft Accidents Investigation Bureau** arrived in Ahmedabad **later in the day** to begin the investigation.  
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की जांच टीमों ने उसी दिन बाद में अहमदाबाद पहुंचकर जांच शुरू की।



# Retail inflation eases to six-year low of 2.8% in May

GS Paper III: Inflation

**T.C.A. Sharad Raghavan**  
NEW DELHI

India's retail inflation eased to a 75-month low of 2.8% in May 2025, driven downwards by falling food inflation, according to data released on Thursday. Inflation as measured by the Consumer Price Index was last lower than this in February 2019.

Overall, retail inflation has averaged 2.99% in 2025-26 – based on the two months of data available – the lowest average for the first two months of a financial year since 2017-18.

Inflation in the food and beverages category eased to 1.5% in May 2025, down from 2.1% in April. This marks the seventh consecutive month of slowing food inflation.

**Likely pause in rate cuts**  
“Deflation in key components such as vegetables, pulses, spices, and meat contributed to this decline,” said Rajani Sinha, Chief Economist at CareEdge Ratings. “However, double-digit inflation in edible oils and fruits partially offset the broader moderation.”

Economists say that the

## Price ease

Drop in food prices slowed India's annual retail inflation to 2.82% in May, the lowest since Feb. 2019



Source: CMI

substantial easing of inflation and the RBI's recent interest rate cuts mean the central bank will likely pause further rate cuts in the short term.

“While the overall inflation trajectory is expected to remain benign, the recent frontloaded policy actions and the guidance of limited room for incremental easing suggests a prolonged pause for now, with further actions being highly data dependent,” said Upasna Bhardwaj, Chief Economist at Kotak Mahindra Bank.

Vegetable prices contracted 13.7% in May 2025, pulses prices contracted 8.2%, inflation in spices contracted 2.8%, and meat prices contracted 0.4%.

Ms. Sinha added that

the persistent rise in edible oil prices remains a concern, driven by a contraction in oilseed sowing, rising global prices, and India's dependence on imports in this segment.

“The government's recent move to reduce the basic customs duty on imported crude edible oils from 20% to 10% is expected to offer some relief going forward.”

Inflation in the paan, tobacco, and other intoxicants category quickened marginally to 2.4% in May from 2.1% in April.

Similarly, inflation in the housing segment inched up to 3.2% in May from 3.1% in April. Inflation in the clothing and footwear category remained exactly the same in May as it was in April, at 2.67%.

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सबसे कम औसत है।

- **Food and beverages inflation** dropped to 1.5% in May 2025, down from 2.1% in April, marking the **seventh consecutive month** of declining food inflation.

खाद्य और पेय पदार्थों की महंगाई मई 2025 में घटकर 1.5% रह गई, जो अप्रैल में 2.1% थी, यह सातवां लगातार महीना है जब खाद्य महंगाई में गिरावट दर्ज की गई।

## Deflation in Key Food Items

### मुख्य खाद्य वस्तुओं में गिरावट

- **Vegetable prices** fell by 13.7%, **pulses** by 8.2%, **spices** by 2.8%, and **meat** by 0.4% in May 2025.

## Retail Inflation Eases to Six-Year Low of 2.8% in May

मई में खुदरा महंगाई छह साल के निचले स्तर 2.8% पर

- India's **retail inflation** fell to a **75-month low of 2.8%** in May 2025, primarily due to **falling food inflation**, as per data released on **Thursday**.

भारत की खुदरा महंगाई मई 2025 में घटकर 2.8% पर आ गई, जो 75 महीनों का न्यूनतम स्तर है, इसका मुख्य कारण खाद्य महंगाई में गिरावट है, यह जानकारी गुरुवार को जारी आंकड़ों से मिली।

- The **Consumer Price Index (CPI)** was last lower than this in **February 2019**.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) इससे पहले फरवरी 2019 में इससे कम दर्ज किया गया था।

- The **average retail inflation** for 2025-26 based on the first two months is **2.99%**, which is the **lowest average** for the beginning of a **financial year** since 2017-18.

2025-26 के पहले दो महीनों में औसत खुदरा महंगाई 2.99% रही, जो 2017-18 के बाद किसी



मई 2025 में सब्जियों के दाम में 13.7%, दालों में 8.2%, मसालों में 2.8%, और मांस में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई।

- **Chief Economist at CareEdge Ratings, Rajani Sinha**, stated that **deflation** in these categories contributed to the decline. However, **double-digit inflation** in **edible oils and fruits** partly **offset** the moderation.

केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा ने कहा कि इन वस्तुओं में घटती महंगाई से कुल गिरावट में मदद मिली, हालांकि खाद्य तेलों और फलों में दोहरे अंकों की महंगाई ने इसे कुछ हद तक कमजोर किया।

- The **rise in edible oil prices** remains a concern, driven by **low oilseed sowing**, **rising global prices**, and **India's dependence on imports**.

खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि चिंता का विषय बनी हुई है, इसका कारण तेल बीज की कम बुवाई, वैश्विक कीमतों में वृद्धि, और आयात पर भारत की निर्भरता है।

- The government's recent move to **cut basic customs duty** on **imported crude edible oils** from **20% to 10%** is expected to provide **relief**.

सरकार ने हाल ही में आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया है, जिससे राहत मिलने की उम्मीद है।

## Implications for RBI and Rate Policy

### RBI और ब्याज दर नीति पर असर

- **Economists** believe that due to the **substantial drop in inflation** and the **RBI's recent rate cuts**, there may be a **pause in further cuts** in the short term.

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महंगाई में भारी गिरावट और RBI द्वारा हाल में की गई ब्याज दरों में कटौती के कारण अगली कटौतियों पर फिलहाल रोक लग सकती है।

- **Upasna Bhardwaj**, Chief Economist at **Kotak Mahindra Bank**, stated that **further policy action** will depend on **upcoming data**, and the RBI is likely to go for a **prolonged pause**.

कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा कि नीतिगत निर्णय अब आगामी आंकड़ों पर निर्भर होंगे और RBI लंबी रोक की संभावना जता रही है।

## Sector-Specific Inflation Trends

### क्षेत्र-विशेष महंगाई प्रवृत्तियाँ

- Inflation in **paan, tobacco, and other intoxicants** rose slightly to **2.4% in May** from **2.1% in April**.

पान, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों की महंगाई अप्रैल में 2.1% से बढ़कर मई में 2.4% हो गई।

- **Housing inflation** inched up to **3.2% in May**, compared to **3.1% in April**.

मकान क्षेत्र की महंगाई अप्रैल में 3.1% से बढ़कर मई में 3.2% हो गई।



- Inflation in the **clothing and footwear** category remained **unchanged** at **2.67%** in **May**, same as in **April**.

कपड़े और जूते श्रेणी में महंगाई अप्रैल की तरह मई में भी 2.67% पर स्थिर रही।



## Study finds how genes influence symptoms of mental disorders

GS Paper III: S&T

A study has uncovered genes that govern how sensitive one is about their environment, levels of which can influence symptoms they present of mental disorders. An international team of researchers analysed nearly 10,900 pairs of identical twins from 11 studies and examined how changes in sensitivity to environment can influence one's chances of presenting symptoms of ADHD, autism, anxiety and depression, psychosis and neuroticism. PTI

- An **international team of researchers** analysed nearly **10,900 pairs of identical twins** from **11 studies** to explore how **changes in environmental sensitivity** affect the risk of certain disorders.

अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने 11 अध्ययनों से लगभग 10,900 एक जैसे जुड़वां जोड़ों का विश्लेषण किया, ताकि यह समझा जा सके कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता में बदलाव कुछ विकारों के जोखिम को कैसे प्रभावित करता है।

## Study Finds How Genes Influence Symptoms of Mental Disorders

अध्ययन में पाया गया कि कैसे जीन मानसिक विकारों के लक्षणों को प्रभावित करते हैं

A study has identified genes that govern how sensitive a person is to their environment, which in turn can influence symptoms of mental disorders.

एक अध्ययन में उन जीनों की पहचान की गई है जो किसी व्यक्ति की पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को नियंत्रित करते हैं, जो आगे चलकर मानसिक विकारों के लक्षणों को प्रभावित कर सकती है।



- These conditions include **ADHD, autism, anxiety, depression, psychosis, and neuroticism.**  
इनमें एडीएचडी, ऑटिज़्म, चिंता, अवसाद, मनोविकृति, और न्यूरोटिसिज़्म जैसी स्थितियाँ शामिल हैं।



## May was world's second warmest on record, EU scientists say

GS Paper III: Environment

The world experienced its second warmest May since records began this year, a month in which climate change fuelled a record-breaking heatwave in Greenland, scientists have said. Last month was Earth's second-warmest May on record – exceeded only by May 2024 – rounding out the northern hemisphere's second-hottest March-May spring on record, the EU's Copernicus Climate Change Service said in a monthly bulletin. REUTERS

- **May 2025** was surpassed only by **May 2024**, making it the **second-hottest May** in history.  
मई 2025 केवल मई 2024 से पीछे रहा, जिससे यह इतिहास का दूसरा सबसे गर्म मई बन गया।
- The **March-May** period this year was also the **second-hottest spring** in the **northern hemisphere**, as reported by the **EU's Copernicus Climate Change Service.**  
ईयू के कोपर्निकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार, इस वर्ष का मार्च से मई का समय उत्तरी गोलार्ध का दूसरा सबसे गर्म वसंत रहा।


## May Was World's Second Warmest on Record, EU Scientists Say

ईयू वैज्ञानिकों के अनुसार, मई रहा दुनिया का दूसरा सबसे गर्म महीना रिकॉर्ड पर

The world recorded its second warmest May this year since records began, according to EU scientists.

ईयू वैज्ञानिकों के अनुसार, इस वर्ष दुनिया ने रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से दूसरा सबसे गर्म मई अनुभव किया।

- A **record-breaking heatwave** in **Greenland** during **May 2025** was largely fuelled by **climate change.**  
मई 2025 में ग्रीनलैंड में आई रिकॉर्ड-तोड़ हीटवेव मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण थी।



# Science behind right AC temperature

The Union Ministry of Power has indicated that it is considering restricting the temperature range of new air conditioners to between 20 degrees and 28 degrees Celsius; studies indicate that apart from energy saving benefits, there are also public health benefits to support case for a fixed temperature range

SS Paper '01, B&T  
Vasudevan Mukunth

**T**he Union Ministry of Power has said it is mulling restricting the temperature range of new air conditioners (ACs) in the country to between 20 degrees and 28 degrees Celsius.

In a press conference on Tuesday, Power Minister Manohar Lal Khattar told presspersons the restriction would apply to ACs in households, hotels, and cars.

The idea is not new: in 2018 and then in 2021, R.K. Singh, then the Minister of State (Independent Charge) for Power had said the Ministry was speaking to AC manufacturers about labelling ACs with the optimum temperature setting and fixing the default temperature setting at 24 degrees. At the time the Ministry had also said in a statement that it would consider instituting the default setting following an awareness campaign for four to six months and after public consultations.

"Every 1 degrees Celsius increase in the air conditioner temperature setting results in saving of 6% of electricity consumed," Mr. Singh said. He added that the 24 degrees Celsius recommendation had come from a Bureau of Energy Efficiency study and that should all consumers adopt the setting, the country would save 20 billion units of electricity per year. The BEE had said at the time that the total connected load due to ACs would be 200 gigawatt by 2030.

Aside from calling the 18-21 degrees Celsius range "uncomfortable", the Minister said it was "unhealthy". Indeed, many studies have found that the blood-pressure load rises quickly below 18 degrees Celsius, with vasoconstriction and sympathetic activation being found to drive the systolic blood pressure up by about 6-8 mm (Hg) and long-term exposure translating to higher risk of hypertension. Separate trials involving children in Japan, New Zealand, and the United Kingdom have also found they breathed easier when they slept with ACs set to more than 18 degrees Celsius.

In 2018, the International Energy Agency estimated there were 2 billion ACs in use around the world and that the number of residential units tripled from 2000 to 2022, to 1.5 billion. The agency also said that as of 2022, 43% of people in the Asia Pacific region were still in need of additional cooling.

An AC works by pumping heat from one space to another. Heat naturally flows from warmer to cooler areas, which



**Beating the heat:** People purchasing air conditioners during the summer in Patna. The power-cost of ACs is not the only reason to want to steer clear of lower temperatures. ANI

means continuously moving it in the other direction – e.g. from a room at 30 degrees Celsius to an environment at 35 degrees Celsius – requires work. This work is represented in the AC's power consumption.

The typical vapour-compression cycle of an AC uses a liquid called a refrigerant to transport the heat. A device called the evaporator holds the refrigerant at just about its boiling point. When a fan blows air in the room over the evaporator, the refrigerant boils by absorbing heat from the air. The air also becomes dehumidified as moisture in the air condenses on the evaporator and drains away. Next, it flows to the compressor as a superheated vapour. The compressor compresses it by 3-4x, in the process heating it to about 90 degrees Celsius. This is the step during which the AC consumes most of its power.

The high-pressure superheated vapour then moves to the condenser, where it naturally loses its heat to the environs while turning back into a liquid. Since its pressure is still high, it passes through an expansion device that turns it into a low-pressure liquid-vapour mix close to its boiling point, and sends it back to the evaporator.

The temperature range in which a

refrigerant takes up and releases heat most efficiently is the range within which the AC is also said to be most efficient.

#### Risks of low temperatures

The power-cost of ACs is not the only reason to want to steer clear of lower temperatures. Numerous studies have ascertained that save for the small fraction of people that need access to cold spaces, the general population can develop higher risks of hypertension, asthma, and respiratory infections when exposed to living spaces under 18 degrees Celsius.

Researchers have generally treated 'comfort' to be the point where a body's core temperature (around 37 degrees Celsius) and mean skin temperature can be kept constant without any sweating or shivering and when no more than about 10% of the occupants of a space say they feel too hot or too cold (called the predicted mean vote). The ASHRAE-55 and ISO 7730 standards begin from this thumb rule before adjusting 'comfort' according to the clothing, cultural sensibilities, and the prevalent types of cooling in different parts of the world.

The body at rest dissipates around 100 W of metabolic heat. Around 20 to 24 degrees Celsius, a lightly clothed person

can shed that heat by radiation and convection alone without breaking a sweat or restricting skin blood flow.

ASHRAE-55 allows the zone to rise roughly 0.3 degrees Celsius for every 1 degrees Celsius rise in the mean ambient temperature, up to about 30 degrees to 32 degrees Celsius.

Some sleep studies have converged on 16-19 degrees Celsius for healthy young and middle-aged adults. Cool air reportedly helps the core temperature dip by about 1 degrees Celsius, quickening sleep onset and ensuring deep sleep is stable. Infants and older adults may prefer the upper limit of around 19 degrees Celsius because their bodies' thermoregulation is less robust.

This said, the WHO's 2018 Housing and Health Guidelines recommend using 18 degrees Celsius as the minimum safe living-room temperature in temperate or cooler climates because cardiovascular and respiratory admissions were found to climb steeply below that threshold. One cross-sectional study published in 2014 reported a strong correlation between indoor temperatures under 18 degrees Celsius and 9% of the "population attributable risk" of hypertension. Similarly, a 2016 study used data from the English Longitudinal Study of Ageing 2012-2013 to compare differences in symptoms between people exposed to living space under and over 18 degrees Celsius. It showed that those living in the colder homes had higher cholesterol and weaker grip strength.

Another longitudinal study the same year said 16% of people over the age of 50 and living in spaces cooled to under 18 degrees Celsius had higher blood pressure, lower vitamin D levels, and poorer lung function.

On the respiratory front: a study published in 2013 involving 309 children and more than 12,000 child-days analysed the effects of each 1 degrees Celsius drop below a mean bedroom temperature of 14-16 degrees Celsius. It revealed a drop in how quickly children could exhale air and lower lung function.

In 2022, researchers in the U.K. reported that people living in persistently "cold homes" were at twice as much risk of new episodes of depression and anxiety, even after adjusting for incomes and baseline mental distress.

The case for moving towards a fixed temperature range on ACs is clear – supported by public health benefits as well as energy savings. (mukunth.v@thehindu.co.in)

#### THE GIST

▼ In 2018, the International Energy Agency estimated there were 2 billion ACs in use around the world and that the number of residential units tripled to 1.5 billion from 2000 to 2022.

▼ Numerous studies have ascertained that save for the small fraction of people that need access to cold spaces, the general population can develop higher risks of hypertension, asthma, and respiratory infections when exposed to living spaces under 18 degrees Celsius.

▼ The WHO's 2018 Housing and Health Guidelines recommend using 18 degrees Celsius as the minimum safe living-room temperature in temperate or cooler climates because cardiovascular and respiratory admissions were found to climb steeply below that threshold.

## Science Behind Right AC Temperature

### सही एसी तापमान के पीछे का विज्ञान

The Union Ministry of Power is considering restricting the temperature range of new air conditioners to between 20°C and 28°C.

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय नए एयर कंडीशनरों के तापमान सीमा को 20°C से 28°C के बीच सीमित करने पर विचार कर रहा है।

- According to studies, this step will offer energy saving benefits as well as public health benefits.

अध्ययनों के अनुसार, यह कदम ऊर्जा की बचत के साथ-साथ जन स्वास्थ्य को भी लाभ देगा।



- At a press conference on **Tuesday, Power Minister Manohar Lal Khattar** said this restriction would apply to **households, hotels, and cars**.  
मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि यह प्रतिबंध घरों, होटलों और कारों में लागू होगा।
- In **2018** and **2021**, then Power Minister **R.K. Singh** had also discussed labelling ACs with **optimum temperature setting** and fixing **24°C** as the **default setting**.  
2018 और 2021 में, तत्कालीन विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने भी एसी पर इष्टतम तापमान सेटिंग का लेबल लगाने और 24°C को डिफॉल्ट सेटिंग बनाने की बात कही थी।
- The ministry had planned to **initiate this after a 4-6 month awareness campaign and public consultations**.  
मंत्रालय ने इसे 4-6 महीने की जनजागरूकता अभियान और जन परामर्श के बाद लागू करने की योजना बनाई थी।
- Mr. Singh stated that **every 1°C increase** in AC temperature saves **6% electricity**.  
श्री सिंह ने कहा कि एसी तापमान में हर 1°C की वृद्धि से 6% बिजली की बचत होती है।
- A **Bureau of Energy Efficiency (BEE)** study said if all users follow the **24°C setting**, **20 billion units** of electricity can be saved yearly.  
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के अध्ययन के अनुसार यदि सभी उपभोक्ता 24°C सेटिंग अपनाएं, तो हर साल 20 अरब यूनिट बिजली की बचत हो सकती है।
- At that time, BEE also projected that the **total connected load** from ACs will reach **200 GW by 2030**.  
उस समय BEE ने अनुमान लगाया था कि 2030 तक एसी के कारण कुल लोड 200 गीगावॉट तक पहुंच जाएगा।
- The Minister also called the **18-21°C temperature range** both “uncomfortable” and “unhealthy”.  
मंत्री ने 18-21°C तापमान सीमा को “असुविधाजनक” और “अस्वस्थकर” बताया।
- Studies found that **below 18°C**, there is **vasoconstriction** and **sympathetic activation**, which increases **systolic blood pressure** by about **6-8 mmHg**, raising **hypertension risk** over time.  
अध्ययन में पाया गया कि 18°C से नीचे तापमान पर नसों का संकुचन और संपेथेटिक सक्रियता होती है, जिससे सिस्टोलिक रक्तचाप लगभग 6-8 मिमी एचजी तक बढ़ता है और हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम होता है।
- **Trials in Japan, New Zealand, and the UK** have shown that **children breathe better** when ACs are set above **18°C**.  
जापान, न्यूज़ीलैंड और यूके में परीक्षणों से पता चला है कि जब एसी 18°C से ऊपर सेट होते हैं तो बच्चे बेहतर सांस लेते हैं।
- In **2018**, the **International Energy Agency** estimated that **2 billion ACs** were in use globally.  
2018 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि दुनिया में 2 अरब एसी उपयोग में थे।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- From **2000 to 2022**, the number of **residential AC units tripled to 1.5 billion**.  
2000 से 2022 के बीच घरेलू एसी इकाइयों की संख्या तीन गुना बढ़कर 1.5 अरब हो गई।
- As of **2022**, around **43% of people in the Asia Pacific region still needed additional cooling**.  
2022 तक, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लगभग 43% लोग अब भी अतिरिक्त ठंडक की आवश्यकता में थे।
- An **AC works by pumping heat** from one space to another, which requires **more energy** when moving heat from a **cooler to warmer area**.  
एक एसी काम करता है एक स्थान से दूसरे स्थान में गर्मी को पंप करके, और यह कार्य अधिक ऊर्जा मांगता है जब गर्मी को ठंडे से गर्म क्षेत्र में ले जाना होता है।
- The **vapour-compression cycle** uses a **refrigerant**, which boils in the **evaporator**, absorbing **heat** and **dehumidifying the air**.  
वाष्प-संपीड़न चक्र एक रेफ्रिजरेंट का उपयोग करता है, जो एवापोरेटर में उबलता है और गर्मी सोखता है तथा हवा को नम रहित करता है।
- The **compressor** compresses the **vapour 3-4 times**, heating it to about **90°C**, and this is the stage of **maximum power consumption**.  
कंप्रेसर वाष्प को 3-4 गुना संपीड़ित करता है, जिससे इसका तापमान लगभग 90°C तक बढ़ जाता है, और यह चरण सबसे अधिक बिजली खपत करता है।
- The **condenser** releases the **heat to the environment** and converts the refrigerant back into liquid.  
कंडेंसर वातावरण में गर्मी छोड़ता है और रेफ्रिजरेंट को फिर से तरल में बदल देता है।
- The refrigerant then passes through an **expansion device**, reducing pressure, and returns to the **evaporator** to restart the cycle.  
इसके बाद रेफ्रिजरेंट एक एक्सपेंशन डिवाइस से होकर गुजरता है, जो दबाव को कम करता है और इसे फिर से एवापोरेटर में भेजा जाता है।
- The **most efficient temperature range** for a refrigerant to absorb and release heat is the range in which the **AC operates most efficiently**.  
वह तापमान सीमा जिसमें रेफ्रिजरेंट सबसे कुशलता से गर्मी लेता और छोड़ता है, वही सीमा है जिसमें एसी सबसे कुशलता से काम करता है।

## Risks of Low Temperatures

### कम तापमान के जोखिम

- The power cost of air conditioners is not the only reason to avoid lower temperatures. Several studies have confirmed that except for a small group of people who require access to cold environments, most of the general population faces **higher risks of hypertension, asthma, and respiratory infections** when living spaces are kept at temperatures **below 18°C**.  
एयर कंडीशनर की ऊर्जा लागत कम तापमान से बचने का एकमात्र कारण नहीं है। कई अध्ययनों ने पुष्टि

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



की है कि ठंडी जगहों की आवश्यकता वाले कुछ लोगों को छोड़कर, अधिकांश लोगों को **18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान** में रहने पर उच्च रक्तचाप, अस्थमा और श्वसन संक्रमण का अधिक जोखिम होता है।

- Researchers generally define 'comfort' as the condition where a person's **core body temperature (around 37°C)** and **mean skin temperature** remain stable without sweating or shivering. Additionally, comfort is said to be achieved when **not more than 10%** of occupants in a space report feeling either too hot or too cold, a measure referred to as the **Predicted Mean Vote (PMV)**.

शोधकर्ता आमतौर पर 'आराम' को उस स्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं जब किसी व्यक्ति का **मुख्य शरीर तापमान (लगभग 37°C)** और **औसत त्वचा तापमान** पसीना या ठिठुरन के बिना स्थिर रहता है। इसके अलावा, जब किसी स्थान पर **10% से अधिक लोग** बहुत गर्म या बहुत ठंडा महसूस नहीं करते हैं, तो इसे **प्रेडिकटेड मीन वोट (PMV)** द्वारा मापा गया आराम माना जाता है।

- International standards like **ASHRAE-55** and **ISO 7730** adopt this comfort model and then adjust it according to factors like **clothing, cultural differences**, and the **type of cooling technology** used in different regions.

**ASHRAE-55** और **ISO 7730** जैसे अंतरराष्ट्रीय मानक इस आराम मॉडल को अपनाते हैं और फिर इसे **कपड़ों, सांस्कृतिक विविधताओं, और विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की गई कूलिंग तकनीकों** के अनुसार समायोजित करते हैं।

- A human body at rest dissipates around **100 watts** of **metabolic heat**. When the ambient temperature is between **20°C and 24°C**, a **lightly clothed person** can release this heat through radiation and convection without sweating or restricting blood flow to the skin.

आराम की स्थिति में एक मानव शरीर लगभग **100 वाट** की **चयापचय ऊष्मा** छोड़ता है। जब बाहरी तापमान **20°C से 24°C** के बीच होता है, तब **हल्के कपड़े पहना व्यक्ति** इस ऊष्मा को विकिरण और संवहन के माध्यम से पसीना बहाए बिना या त्वचा में रक्त प्रवाह को रोके बिना निकाल सकता है।

- According to **ASHRAE-55**, the upper limit of the comfort zone can increase by about **0.3°C** for every **1°C** rise in the average temperature, up to a maximum of **30°C to 32°C**.

**ASHRAE-55** मानक के अनुसार, हर **1°C** तापमान वृद्धि पर आराम क्षेत्र की ऊपरी सीमा में **लगभग 0.3°C** की वृद्धि हो सकती है, अधिकतम सीमा **30°C से 32°C** तक।

- Some sleep studies have shown that a temperature range of **16°C to 19°C** is ideal for healthy young and middle-aged adults. At this temperature, the core body temperature drops by around **1°C**, which helps people fall asleep faster and experience deeper sleep.

कुछ नींद संबंधित अध्ययनों से पता चला है कि **16°C से 19°C** का तापमान स्वस्थ युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोगों के लिए आदर्श होता है। इस तापमान पर शरीर का मुख्य तापमान **लगभग 1°C** तक गिर जाता है, जिससे जल्दी और गहरी नींद आती है।

- However, **infants and elderly individuals** may require slightly warmer temperatures, around **19°C**, as their **thermoregulation abilities** are less efficient.

हालाँकि, **शिशु और वृद्ध व्यक्ति** सामान्यतः थोड़ा गर्म तापमान, लगभग **19°C**, पसंद करते हैं क्योंकि उनकी तापमान नियंत्रित करने की क्षमता कमजोर होती है।



- According to the **World Health Organization's 2018 Housing and Health Guidelines**, a minimum indoor temperature of **18°C** is considered **safe in temperate or colder climates**, as cases of **cardiovascular and respiratory illnesses** were found to rise significantly below this threshold.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 2018 की हाउसिंग और हेल्थ गाइडलाइंस के अनुसार, समशीतोष्ण या ठंडे जलवायु में 18°C को सुरक्षित न्यूनतम इनडोर तापमान माना जाता है, क्योंकि इससे नीचे हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ते हैं।

- One **cross-sectional study from 2014** found that indoor temperatures below **18°C** accounted for **9%** of the **population attributable risk of hypertension**.

2014 के एक अध्ययन में पाया गया कि 18°C से कम इनडोर तापमान के कारण हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम का 9% योगदान था।

- Another **2016 study**, based on the English Longitudinal Study of Ageing (2012–2013), reported that individuals living in homes cooler than **18°C** had **higher cholesterol levels** and **weaker grip strength**.

एक अन्य 2016 के अध्ययन, जो इंग्लैंड के वृद्धावस्था संबंधी दीर्घकालिक अध्ययन (2012-2013) पर आधारित था, ने बताया कि 18°C से कम तापमान वाले घरों में रहने वाले लोगों में कोलेस्ट्रॉल अधिक था और हाथों की पकड़ कमजोर थी।

- A separate **longitudinal study in 2016** also found that **16%** of people over the age of **50** who lived in cooler homes had **higher blood pressure**, **lower vitamin D levels**, and **weaker lung function**.

2016 के एक अन्य दीर्घकालिक अध्ययन में यह पाया गया कि 50 वर्ष से ऊपर के 16% लोग, जो ठंडे घरों में रहते थे, उनमें उच्च रक्तचाप, कम विटामिन D, और कमजोर फेफड़ों की कार्यक्षमता देखी गई।

- A **2013 respiratory study** involving **309 children** and over **12,000 child-days** found that with each **1°C drop** below a bedroom temperature of **14°C to 16°C**, children experienced a **reduction in exhalation speed** and **lower lung capacity**.

2013 के एक श्वसन संबंधी अध्ययन, जिसमें 309 बच्चों और 12,000 से अधिक दिन का डेटा लिया गया, ने पाया कि 14°C से 16°C तापमान से नीचे हर 1°C की गिरावट पर बच्चों की सांस छोड़ने की गति और फेफड़ों की क्षमता में कमी देखी गई।

- A **2022 study** from the **UK** revealed that people living in **persistently cold homes** had **twice the risk** of developing **new episodes of depression and anxiety**, even after controlling for **income levels** and **baseline mental health**.

2022 के एक ब्रिटिश अध्ययन से यह पता चला कि लगातार ठंडे घरों में रहने वाले लोगों में डिप्रेशन और चिंता के नए मामलों का दो गुना जोखिम था, भले ही आय स्तर और प्रारंभिक मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया हो।

- In conclusion, the case for adopting a **fixed temperature range** for air conditioners is strong, as it offers both **public health advantages** and **energy efficiency**.

अंततः, एयर कंडीशनर के लिए निश्चित तापमान सीमा अपनाने का पक्ष मजबूत है क्योंकि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और ऊर्जा की बचत दोनों होती हैं।



## Reclaiming the Golden Hour: how technology can help beat traffic and save lives

GIS Paper III: Disaster Management  
**V. Viju Wilben**

The difference between life and death during a medical emergency often hinges on a single factor: time. In cities such as Bengaluru, Mumbai and Delhi, traffic congestion routinely swallows precious minutes, undermining even the best medical interventions.

Urban traffic delays are a critical, often overlooked cause of preventable mortality. Multiple studies and audits confirm that delays in ambulance response times are directly linked to increased trauma fatalities and deteriorating patient outcomes. For example: in Delhi, the average ambulance response time has risen to over 17 minutes, up from

13 minutes in 2014, despite an increase in fleet size. A 2021 Comptroller and Auditor General report on Karnataka found that nearly 90,000 crash victims did not receive timely care due to ambulance unavailability and delays, and in 6,000 cases, dispatch itself was delayed by over 30 minutes.

### Response time

Nationally, the average ambulance response time ranges from 25 to 30 minutes, with rural areas faring even worse. According to the National Crime Records Bureau, a significant proportion of accident deaths in Indian cities occur in transit, before patients reach a hospital.

The 'Golden Hour' – the



**In limbo:** Urban traffic delays are a critical, often overlooked cause of preventable mortality. B. JOTHI RAMALINGAM

first 60 minutes after trauma or acute medical events is critical for survival, particularly in cases of stroke, cardiac arrest, or severe injuries. Yet, in India's congested metros, this window is often lost to traffic

To address these systemic delays, hospitals and civic authorities are increasingly turning to technology to optimise emergency medical logistics. One example of this is GPS-based ambulance tracking:

real-time GPS integration allows for dynamic route optimisation, live-tracking, and early hospital alerts. In cities where such systems are implemented, response times have improved. In Chennai and Kolkata, GPS-enabled fleets have reduced response times by 12-15%. Door-to-CT scan times for stroke patients have also improved, enabling quicker thrombolysis and better outcomes.

### Signal override system

Another intervention is traffic signal pre-emption: pilot projects have demonstrated that traffic signal override systems – where ambulances automatically trigger green lights – can reduce journey times. However, only a few urban

intersections in India are currently equipped for such digital interventions.

Bike ambulances in gridlocked or narrow urban zones have proven invaluable. Under Karnataka's 'Platinum Ten Minutes' initiative, bike ambulances were first responders in one-third of trauma cases in Bengaluru, with a median arrival time of under six minutes – less than half that of traditional ambulances. Early stabilisation in such cases has been lifesaving.

Despite technological advances, several barriers persist. One of these is inadequate infrastructure: fewer than one in five urban traffic signals can support override systems; most still rely on manual or timer-based controls. This

apart, there are technology gaps as well: GPS signal loss, uncharged devices, and software glitches can cause further lapses.

Another barrier is public apathy. Surveys indicate that 62% of ambulance drivers report motorists refusing to yield, and 45% have to personally request drivers to make way at least once a week. Laws on "ambulance right of way" need to be enforced more stringently.

Improving emergency care outcomes in India's cities will require coordinated action.

Time is the most critical element in emergency treatment. When the Golden Hour is lost to traffic, it is not merely a delay – it is often a preventable death.

*(Dr. V. Viju Wilben is a consultant, Emergency Department, Narayana Health, Bengaluru)*  
[viju.wilben.dr@narayanahealth.org](mailto:viju.wilben.dr@narayanahealth.org)

## Reclaiming the Golden Hour: How technology can help beat traffic and save lives

**गोल्डन आवर की पुनर्प्राप्ति: कैसे तकनीक ट्रैफिक को मात देकर जीवन बचा सकती है**

The difference between life and death during a medical emergency often hinges on a single factor: time.

चिकित्सा आपातकाल के दौरान जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर अक्सर एक ही कारक पर निर्भर करता है: समय।

- In cities such as **Bengaluru, Mumbai, and Delhi**, traffic congestion routinely swallows precious minutes, undermining even the best medical interventions.  
**बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली** जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम नियमित रूप से कीमती मिनटों को निगल जाता है, जिससे बेहतरीन चिकित्सा प्रयास भी बेकार हो जाते हैं।
- Urban traffic delays are a critical, often overlooked cause of **preventable mortality**.  
शहरी ट्रैफिक में देरी **रोकथाम योग्य मृत्यु** का एक गंभीर लेकिन अक्सर अनदेखा कारण है।
- Multiple studies and audits confirm that delays in **ambulance response times** are directly linked to increased **trauma fatalities** and deteriorating **patient outcomes**.  
कई अध्ययन और ऑडिट पुष्टि करते हैं कि **एम्बुलेंस प्रतिक्रिया समय** में देरी सीधे **ट्रॉमा मृत्यु दर** और **रोगी परिणामों में गिरावट** से जुड़ी है।
- For example: In **Delhi**, the average ambulance response time has risen to over **17 minutes**, up from **13 minutes in 2014**, despite an increase in fleet size.  
उदाहरण के लिए: **दिल्ली** में औसत एम्बुलेंस प्रतिक्रिया समय **2014 में 13 मिनट** से बढ़कर अब **17 मिनट से अधिक** हो गया है, जबकि बेड़े का आकार बढ़ा है।



- A 2021 CAG report on Karnataka found that nearly 90,000 crash victims did not receive timely care due to ambulance unavailability and delays, and in 6,000 cases, dispatch itself was delayed by over 30 minutes.

कर्नाटक पर एक 2021 की कैग रिपोर्ट में पाया गया कि लगभग 90,000 दुर्घटना पीड़ितों को एम्बुलेंस की अनुपलब्धता और देरी के कारण समय पर इलाज नहीं मिला, और 6,000 मामलों में एम्बुलेंस भेजने में 30 मिनट से अधिक की देरी हुई।

## Response Time

### प्रतिक्रिया समय

- Nationally, the average ambulance response time ranges from 25 to 30 minutes, with rural areas faring even worse.  
राष्ट्रीय स्तर पर, औसत एम्बुलेंस प्रतिक्रिया समय 25 से 30 मिनट है, और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी खराब है।
- According to the National Crime Records Bureau, a significant proportion of accident deaths in Indian cities occur in transit, before patients reach a hospital.  
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारतीय शहरों में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का एक बड़ा हिस्सा अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही होता है।
- The 'Golden Hour', the first 60 minutes after trauma or acute medical events, is critical for survival — particularly in cases of stroke, cardiac arrest, or severe injuries.  
'गोल्डन आवर', जो कि आघात या तीव्र चिकित्सा स्थिति के बाद के पहले 60 मिनट होते हैं, जीवन रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है — खासकर स्ट्रोक, हृदय गति रुकने या गंभीर चोटों के मामलों में।
- Yet, in India's congested metros, this window is often lost to traffic.  
हालांकि, भारत के भीड़भाड़ वाले महानगरों में यह सुनहरा समय अक्सर ट्रैफिक में ही खत्म हो जाता है।
- To address these systemic delays, hospitals and civic authorities are increasingly turning to technology to optimise emergency medical logistics.  
इन व्यवस्थागत देरी को दूर करने के लिए, अस्पताल और शहरी प्रशासन अब तकनीक की मदद से आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को बेहतर बना रहे हैं।
- One example is GPS-based ambulance tracking: real-time GPS integration allows for dynamic route optimisation, live tracking, and early hospital alerts.  
एक उदाहरण है GPS आधारित एम्बुलेंस ट्रैकिंग: रीयल-टाइम GPS एकीकरण से रूट अनुकूलन, लाइव ट्रैकिंग, और जल्दी अस्पताल को अलर्ट भेजना संभव होता है।
- In cities like Chennai and Kolkata, GPS-enabled fleets have reduced response times by 12–15%.  
चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में GPS सक्षम एम्बुलेंसों ने प्रतिक्रिया समय में 12–15% की कमी की है।
- Door-to-CT scan times for stroke patients have also improved, enabling quicker thrombolysis and better outcomes.



स्ट्रोक रोगियों के लिए दरवाजे से सीटी स्कैन तक का समय भी घटा है, जिससे त्वरित थ्रॉम्बोलाइसिस और बेहतर परिणाम संभव हुए हैं।

## Signal Override System

### सिग्नल ओवरराइड प्रणाली

- Another intervention is **traffic signal pre-emption**: pilot projects show that **ambulances triggering green lights automatically** can significantly reduce journey times.  
एक और उपाय है ट्रैफिक सिग्नल प्री-एम्प्शन: पायलट परियोजनाओं से पता चला है कि एम्बुलेंस द्वारा स्वतः ग्रीन सिग्नल प्राप्त करना यात्रा समय को काफी घटा सकता है।
- However, only a **few urban intersections** in India are equipped for such **digital interventions**.  
हालाँकि, भारत में केवल कुछ शहरी चौराहों पर ही इस प्रकार की डिजिटल तकनीकें उपलब्ध हैं।
- **Bike ambulances** have been invaluable in **gridlocked or narrow urban zones**.  
**भीड़भाड़ वाले या संकरे शहरी क्षेत्रों में बाइक एम्बुलेंस** बेहद उपयोगी साबित हुई हैं।
- Under **Karnataka's 'Platinum Ten Minutes' initiative**, bike ambulances were first responders in **one-third of trauma cases** in **Bengaluru**, with a **median arrival time** of under **six minutes** — less than **half** that of traditional ambulances.  
कर्नाटक की 'प्लैटिनम टेन मिनट्स' पहल के तहत बेंगलुरु में एक-तिहाई ट्रॉमा मामलों में बाइक एम्बुलेंस सबसे पहले पहुंचीं, जिनका औसत आगमन समय छह मिनट से कम था — जो पारंपरिक एम्बुलेंस की तुलना में आधा था।
- Early stabilisation in such cases has been **lifesaving**.  
ऐसे मामलों में प्रारंभिक स्थिरीकरण ने जीवन बचाने में मदद की है।

## Persistent Barriers

### लगातार बनी बाधाएँ

- Despite advances, **inadequate infrastructure** remains a major barrier: fewer than **1 in 5** urban traffic signals support override systems; most still rely on **manual or timer-based controls**.  
प्रगति के बावजूद, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा एक बड़ी बाधा बना हुआ है: केवल हर 5 में से 1 शहरी ट्रैफिक सिग्नल ही ओवरराइड सिस्टम का समर्थन करता है; अधिकांश अब भी मैनुअल या टाइमर आधारित नियंत्रण पर निर्भर हैं।
- There are **technology gaps** as well: **GPS signal loss, uncharged devices, and software glitches** can cause further lapses.  
यहाँ तक कि तकनीकी खामियाँ भी हैं: जैसे कि **GPS सिग्नल का टूटना, चार्ज न हुआ डिवाइस, और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियाँ**, जो देरी बढ़ा देती हैं।
- Another barrier is **public apathy**: surveys show **62% of ambulance drivers** report motorists refusing to yield, and **45%** have to personally request passage **at least once a**



week.

एक और बाधा है जनता की उदासीनता: सर्वेक्षणों में 62% एम्बुलेंस ड्राइवरों ने बताया कि लोग रास्ता नहीं देते, और 45% को हर सप्ताह कम से कम एक बार खुद आगे बढ़कर रास्ता मांगना पड़ता है।

- Laws on “ambulance right of way” need to be enforced more strictly.  
“एम्बुलेंस को रास्ता देने” के कानूनों को और सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है।

## Conclusion

### निष्कर्ष

- Improving emergency care outcomes in India’s cities will require coordinated action.  
भारत के शहरों में आपातकालीन चिकित्सा परिणामों में सुधार के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता होगी।
- Time is the most critical element in emergency treatment.  
आपातकालीन उपचार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व समय होता है।
- When the Golden Hour is lost to traffic, it is not merely a delay — it is often a preventable death.  
जब गोल्डन आवर ट्रैफिक में बर्बाद हो जाता है, तो यह केवल देरी नहीं होती — यह अक्सर टाली जा सकने वाली मृत्यु होती है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



GSS Paper III: S&T

## A good fix

Measures to curb agent, bot booking on IRCTC will benefit passengers

**T**he e-ticketing system of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC) is one of India's most widely used e-commerce platforms. Crores of Indian rail commuters and passengers use it to book their tickets, which makes it imperative that the system is run robustly. The scale of the operation is revealing – on May 22, 2025, the IRCTC processed a staggering 31,814 tickets in 60 seconds to set a new record. Yet, the popular e-ticketing system, especially the Tatkal booking part, is plagued by issues. Extremely high demand during peak hours, particularly during the designated Tatkal booking window period, often leads to crashes and slow performance. A major concern is that the system is exploited by ticketing agents who use unfair automated tools (or bots), leading to rapidly dwindling ticket availability for passengers. These issues are what prompted the IRCTC to announce two major steps. The first was a major digital overhaul of the ticketing infrastructure using anti-bot systems to prevent unauthorised automated bookings – a measure that led to the de-activation of a whopping 2.5 crore suspect user IDs. Implementation of a content delivery network also helped improve website performance. In addition, Aadhaar verification is necessary immediately after a ticket is booked. The IRCTC has also mandated Aadhaar authentication for all Tatkal bookings, from July 1, along with OTP-based authentication. Authorised agents have been restricted from booking Tatkal tickets during the first 30 minutes of the booking window period.

The idea behind an e-ticketing platform and the provision of Tatkal booking of tickets are to provide equitable chances for passengers to travel. Despite more train services having been introduced over the years by the Indian Railways, which is a state monopoly, demand far outstrips supply, and passengers have to rely on advanced booking and Tatkal tickets for their travel. When agents use bots to game the system, it kills the purpose of equity. Therefore, the IRCTC's steps will bring relief to passengers. That said, the Indian Railways must focus not only on easing the process of ticketing but also on elevating the passenger experience in terms of increasing its train and track capacity to fulfil travel demand, ensuring safety and enhancing its facilities. Seen in this context, while these ticketing fixes are important, the true test for the Indian Railways will be its ability to move beyond just technical and administrative solutions and undertake a fundamental expansion of its services to serve India's large passenger clientele. In a way, meaningful expansion to meet the demand will also obviate the need for reworking technological solutions yet again in the future.

विश्वसनीयता में सुधार हुआ है।

## A Good Fix: Measures to Curb Agent, Bot Booking on IRCTC

### एक अच्छा सुधार: आईआरसीटीसी पर एजेंटों और बॉट बुकिंग को रोकने के उपाय

The e-ticketing system of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC) is one of India's most widely used e-commerce platforms.

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की ई-टिकट प्रणाली भारत के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों में से एक है।

• Crores of Indian rail commuters use it to book their tickets, making it essential for the system to operate robustly.

करोड़ों भारतीय रेल यात्री इसका उपयोग टिकट बुक करने के लिए करते हैं, जिससे इस प्रणाली का मजबूती से चलना अत्यावश्यक हो जाता है।

• On May 22, 2025, IRCTC processed 31,814 tickets in just 60 seconds, setting a new record.

22 मई 2025 को आईआरसीटीसी ने केवल 60 सेकंड में 31,814 टिकटों की प्रोसेसिंग कर एक नया रिकॉर्ड बनाया।

• Despite such performance, the Tatkal booking system remains troubled by crashes and slow speeds during peak demand.

ऐसी उपलब्धियों के बावजूद, तत्काल बुकिंग प्रणाली में तेज़ मांग के समय रुकावट और धीमी गति जैसी समस्याएं बनी रहती हैं।

• A key issue is unauthorised use of bots by ticketing agents, which reduces ticket availability for normal passengers.

एक मुख्य समस्या टिकट एजेंटों द्वारा बॉट्स के अनधिकृत उपयोग की है, जिससे सामान्य यात्रियों के लिए टिकटों की उपलब्धता कम हो जाती है।

• To address this, IRCTC has undertaken a digital overhaul using anti-bot systems, deactivating 2.5 crore suspicious user IDs.

इसका समाधान करने के लिए आईआरसीटीसी ने एंटी-बॉट सिस्टम के साथ डिजिटल पुनर्निर्माण किया और 2.5 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी को निष्क्रिय कर दिया।

• The implementation of a Content Delivery Network (CDN) has helped improve website speed and reliability.

कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) के कार्यान्वयन से वेबसाइट की गति और

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur  
Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)  
Contact Number : 9971932488  
Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- **Aadhaar verification** is now required **immediately after ticket booking**, with **mandatory Aadhaar authentication** and **OTP-based verification** for **Tatkal bookings** starting from **July 1**.  
अब टिकट बुकिंग के तुरंत बाद आधार सत्यापन आवश्यक है, और 1 जुलाई से तत्काल बुकिंग के लिए अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण तथा ओटीपी आधारित सत्यापन लागू होगा।
- **Authorised agents** are not allowed to book **Tatkal tickets in the first 30 minutes** of the booking window.  
अधिकृत एजेंटों को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं दी गई है।
- The aim of Tatkal booking is to provide **equitable travel opportunity**, but **bots undermine this goal**.  
तत्काल बुकिंग का उद्देश्य यात्रा के लिए समान अवसर प्रदान करना है, लेकिन बॉट्स इस उद्देश्य को कमजोर करते हैं।
- Though Indian Railways has added more trains over time, **demand still exceeds supply**, making Tatkal booking essential.  
हालाँकि भारतीय रेलवे ने समय के साथ और ट्रेनें जोड़ी हैं, फिर भी मांग आपूर्ति से अधिक है, जिससे तत्काल बुकिंग आवश्यक हो जाती है।
- By restricting unfair practices, IRCTC's steps will bring **relief to genuine passengers**.  
अनुचित तरीकों पर रोक लगाकर, आईआरसीटीसी के ये कदम वास्तविक यात्रियों को राहत प्रदान करेंगे।
- However, Indian Railways must also improve **overall travel experience** by **expanding train and track capacity**, enhancing **safety and passenger facilities**.  
हालाँकि, भारतीय रेलवे को ट्रेन और ट्रैक की क्षमता बढ़ाकर, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं में सुधार कर यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना चाहिए।
- While technological fixes are welcome, the **real solution lies in expanding services** to meet rising travel demand.  
हालाँकि तकनीकी सुधार स्वागत योग्य हैं, लेकिन वास्तविक समाधान सेवाओं के विस्तार में है ताकि बढ़ती यात्रा मांग को पूरा किया जा सके।
- Meaningful expansion will also reduce the need to repeatedly fix tech systems in the future.  
सार्थक विस्तार भविष्य में तकनीकी प्रणाली को बार-बार सुधारने की आवश्यकता को भी कम करेगा।



## Urbanisation and the challenge of ideal transit solutions

SS Paper III

Among the various aspects of Viksit Bharat by 2047, an urbanised India is sure to be a principal one as it is expected that urban India will be the engine of growth in this transformation. Let us note that over 60% of India's population would move from low-productive rural India to highly productive urban India by the 2060s.

Clearly, the mobility of people on such a large scale within cities, from their residential quarters to work areas, will be a test for urban planners. While policymakers have plans to construct smart cities, where the need for the mobility of workers will be substantially reduced, the fact remains that, unlike China, we do not see many of the newly emerging smart cities coming of age. In contrast, the metros/existing tier I cities are on an ever-expanding spree, leading to rising challenges for policymakers, such as meeting the transportation demand of workers.

### Rising to the challenge

The government is increasingly focused on augmenting the public transport system to meet the urban mobility challenge. This year's Budget saw the launch of the PM e-Bus Sewa-Payment Security Mechanism, with the aim of improving urban bus transportation in India (nearly 10,000 urban buses). The PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM e-Drive) scheme was introduced, which will support the procurement of 14,000 new e-buses, 1,10,000 e-rickshaws, e-trucks, and e-ambulances.

However, according to estimates, India needs 2,00,000 urban buses, but only 35,000 are operational (including e-buses). This is far below the requirement.

Another initiative has been the greater emphasis on building metro networks and a higher allocation of funds in multiple metro/tier I cities to cater to the high density. This is in line



**Sanjib Pohit**

is with the National Council of Applied Economic Research, New Delhi



**Sovini Mondal**

is with the National Council of Applied Economic Research, New Delhi

Planners in India need to look at whether they are investing in the most sustainable and cost-effective transit solutions

with the trend seen in the recent Budget.

However, as the Economic Survey that was released on the eve of the Budget on January 31, has cited, only 37% of urban residents in India have easy access to public transportation. In contrast, in Brazil and China, more than 50% of urban residents have convenient access to mass transit. Clearly, India is too far behind in developing an efficient public system.

The development of a metro network is a long-term and costly venture. Much of it has been developed with the Centre's funding. And invariably, most have yet to recover their total costs (which includes fixed and operational costs). In almost all metros, the ridership projected in the project document has still to be matched. So, recovering the cost may be a difficult proposition unless the route lies along a high-density route. Also, it has been observed that users are extremely fare sensitive – a fare rise invariably leads to a fall in footfalls. Invariably, consumers seek out their ways keeping in mind comfort, time and cost due to the high cost of last-mile connectivity from metro stations to their work/residence points.

Unlike in some developed countries where public transport is highly subsidised in order to make metro transportation cheap, our government is not financially rich enough to dole out recurrent and large subsidies.

### Seeking alternatives

India also needs cost-effective, road-based public transport for better last-mile connectivity. This year's Budget has increased allocations for urban bus systems, thus continuing efforts to boost capacity, especially in the metros. However, private investment remains limited due to uncertain returns. Government funds have shifted from CNG to more expensive e-buses. Future bottom-up transport models may focus on

road-based modes that use electric, CNG, hydrogen, or biofuel technologies. Yet, they often overlook trams and trolleybuses, which, based on a life cycle cost and revenue analysis, can outperform e-buses in financial terms and deserve serious policy consideration in India's urban transport planning.

### Some estimates

Revenue generation and economic viability over time are the necessary parameters to estimate whether urban road-based public transport has a financial deficit or is making a profit in its life cycle. Analysing the profit and loss (P&L) percentages for various public transport modes will help in accurate decision-making on adopting a future transit. We find that trams show a 45% long-term profitability over seven decades, the usual life cycle of the tram, along with scalability and alignment with climate goals. In contrast, an e-bus system, which is currently the preferred mode on Indian roads, fails to maintain profitability due to high operational and replacement costs, resulting in a net loss of 82% over seven decades. Though moderately efficient, trolleybuses fall short of matching the overall benefits of trams, incurring a minimal loss over the specified time frame.

This raises a critical question. Are we truly investing in the most sustainable and cost-effective transit solutions, or are we chasing a future dependent on continuous public subsidies? The planned introduction of trams in Kochi could mark a game-changing moment in India's urban mobility story. Reviving our past is not just a nostalgic choice of what Kolkata thinks – it is a smart and timely move toward a more sustainable and financially viable transport future.

The views expressed are personal

## Urbanisation and the Challenge of Ideal Transit Solutions शहरीकरण और आदर्श ट्रांजिट समाधान की चुनौती

Among the goals set for Viksit Bharat by 2047, a highly urbanised India will be a key driver, as urban areas are expected to become the primary engine of growth.

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों में एक प्रमुख तत्व तेज़ी से शहरीकरण वाला भारत होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र विकास का मुख्य इंजन बनेंगे।

- It is projected that by the 2060s, more than 60% of India's population will transition from low-productive rural zones to highly productive urban areas. This large-scale shift in population will pose a major test for urban planners, particularly in ensuring the smooth mobility of people from their homes to workplaces.
- ऐसा अनुमान है कि 2060 के दशक तक भारत की 60% से अधिक जनसंख्या कम उत्पादक ग्रामीण क्षेत्रों से अत्यधिक उत्पादक शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाएगी। लोगों की इस बड़े पैमाने पर आवाजाही को लेकर शहरी योजनाकारों के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी होगी, विशेष रूप से उनके रिहायशी इलाकों से कार्यस्थलों तक की सुचारु गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए।



- While there are policy plans to build **smart cities** to reduce the need for daily worker movement, the reality is that unlike **China**, India is yet to see such cities maturing to their full potential. Instead, existing **metro and tier-1 cities** are expanding rapidly, bringing with them new challenges such as the increasing demand for **urban transportation** and the need for innovative **mobility solutions**.
- हालांकि **स्मार्ट शहरों** के निर्माण की योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं कि कर्मचारियों की प्रतिदिन की आवाजाही कम हो, लेकिन **चीन** के विपरीत भारत में ऐसे शहर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। इसके बजाय मौजूदा **मेट्रो और टियर-1 शहर** लगातार फैलते जा रहे हैं, जिससे **शहरी परिवहन** की मांग और गतिशीलता के नवीन समाधानों की आवश्यकता जैसी **नई चुनौतियाँ** उत्पन्न हो रही हैं।

## Rising to the Challenge

### चुनौती का सामना करना

- In response to this, the Indian government has shifted focus toward strengthening the **public transport system**. In the **Union Budget**, the launch of the **PM e-Bus Sewa—Payment Security Mechanism** was announced, aiming to enhance **urban bus transport** by supporting nearly **10,000 buses**. Furthermore, the introduction of the **PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM e-Drive)** scheme aims to support the procurement of **14,000 e-buses**, **1,10,000 e-rickshaws**, and other electric vehicles such as **e-trucks** and **e-ambulances**.
- इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने **सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत** करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। **केंद्रीय बजट में पीएम ई-बस सेवा-पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म** की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य **शहरी बस परिवहन** को बेहतर बनाना है और लगभग **10,000 बसों** को समर्थन देना है। इसके साथ ही **पीएम ई-ड्राइव** योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य **14,000 ई-बसों**, **1,10,000 ई-रिक्शा** तथा अन्य **इलेक्ट्रिक वाहनों** जैसे **ई-ट्रक और ई-एम्बुलेंस** की खरीद में सहायता देना है।
- However, the challenge is vast. As per estimates, India requires around **2,00,000 urban buses**, but currently only **35,000 buses**, including e-buses, are operational—this is significantly below the actual requirement. There has also been a push to build and expand **metro rail networks**, especially in **high-density cities**, and the **Budget** has allocated more funds for this purpose. Yet, the **Economic Survey** revealed that only **37% of urban residents** in India have **easy access to public transport**, compared to over **50% in Brazil and China**. This demonstrates that India is still **lagging behind** in developing an **efficient public transport infrastructure**.
- हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है। अनुमानों के अनुसार भारत को लगभग **2,00,000 शहरी बसों** की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल केवल **35,000 बसें** (ई-बसों सहित) ही चालू हैं—जो आवश्यक संख्या से **काफी कम** हैं। **उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क** के निर्माण और विस्तार पर भी जोर दिया गया है, और इसके लिए **बजट में अधिक राशि आवंटित** की गई है। फिर भी, **आर्थिक सर्वेक्षण** में यह सामने आया है कि भारत में केवल **37% शहरी निवासी** ही **सार्वजनिक परिवहन की आसान पहुंच** रखते हैं,



जबकि ब्राज़ील और चीन में यह आंकड़ा 50% से अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत अभी भी कुशल सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के विकास में पीछे है।

- The development of metro systems is **capital-intensive and long-term**, relying heavily on **central funding**. Despite such investments, **most metro projects** have not been able to recover their **fixed and operational costs**, as **ridership projections** remain unmet. The success of such projects largely depends on their alignment with **high-density routes**. Moreover, **users are highly fare-sensitive** — even small increases in fare can lead to a sharp decline in ridership.
- मेट्रो प्रणाली का विकास एक महंगा और दीर्घकालिक प्रयास है, जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार की फंडिंग पर निर्भर करता है। इन निवेशों के बावजूद, अधिकांश मेट्रो परियोजनाएं अपने स्थायी और परिचालन लागत की वसूली नहीं कर पाई हैं, क्योंकि अनुमानित सवारी संख्या हासिल नहीं हो सकी है। ऐसे प्रोजेक्ट की सफलता काफी हद तक इस पर निर्भर करती है कि वे उच्च घनत्व वाले मार्गों पर आधारित हैं या नहीं। इसके अलावा, उपयोगकर्ता किराए के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं — किराए में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट ला सकती है।
- Finally, because of the **high cost of last-mile connectivity** from metro stations to homes or workplaces, many passengers prefer alternatives that balance **comfort, cost, and time**. Unlike **developed countries** where **public transport is heavily subsidised** to make metro services cheaper, **India lacks the financial capacity** to offer **recurring and large-scale subsidies**.
- अंततः, मेट्रो स्टेशनों से घर या कार्यस्थल तक की लास्ट माइल कनेक्टिविटी की अधिक लागत के कारण कई यात्री ऐसे विकल्प चुनते हैं जो सुविधा, लागत और समय के बीच संतुलन बनाए रखें। विकसित देशों के विपरीत, जहां सार्वजनिक परिवहन को भारी सब्सिडी दी जाती है ताकि मेट्रो सेवाएं सस्ती हों, भारत के पास इतनी वित्तीय क्षमता नहीं है कि वह बड़ी और बार-बार दी जाने वाली सब्सिडी प्रदान कर सके।

## Seeking Alternatives

### विकल्पों की तलाश

- India needs **cost-effective, road-based public transport** to improve **last-mile connectivity**.  
भारत को लागत-कुशल, सड़क आधारित सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता है ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।
- The **current year's Budget** has increased allocations for **urban bus systems**, continuing efforts to boost capacity, especially in **metros**.  
इस वर्ष के बजट में शहरी बस प्रणालियों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है, जिससे विशेष रूप से मेट्रो शहरों में क्षमता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।
- However, **private investment** remains limited due to **uncertain returns**.  
हालांकि, अनिश्चित लाभ के कारण निजी निवेश सीमित बना हुआ है।



- Government funding is now shifting from **CNG buses** to more expensive **e-buses**.  
सरकारी फंडिंग अब सीएनजी बसों से हटकर अधिक महंगी ई-बसों की ओर स्थानांतरित हो रही है।
- Future **bottom-up transport models** may focus on **electric, CNG, hydrogen, or biofuel-based road transport systems**.  
भविष्य के नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले परिवहन मॉडल का ध्यान इलेक्ट्रिक, सीएनजी, हाइड्रोजन या बायोफ्यूल आधारित सड़क परिवहन प्रणालियों पर हो सकता है।
- However, **trams and trolleybuses** are often ignored, even though a **life cycle cost and revenue analysis** shows that trams can **financially outperform e-buses**.  
हालांकि, ट्राम और ट्रॉलीबस को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि जीवन चक्र लागत और राजस्व विश्लेषण दर्शाते हैं कि ट्राम आर्थिक रूप से ई-बसों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं।
- These modes deserve **serious policy consideration** in India's **urban transport planning**.  
ये साधन भारत की शहरी परिवहन योजना में गंभीर नीतिगत विचार के योग्य हैं।

## Some Estimates

### कुछ अनुमान

- To assess the **financial viability** of urban road-based transport, it is necessary to evaluate **revenue generation and profit or loss** across its life cycle.  
शहरी सड़क आधारित परिवहन की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए, पूरे जीवन चक्र में राजस्व सृजन और लाभ या हानि का मूल्यांकन आवश्यक है।
- Analysis of **profit and loss (P&L) percentages** across modes of transport can help in choosing the best **future transit model**.  
विभिन्न परिवहन साधनों में लाभ और हानि (P&L) प्रतिशत का विश्लेषण करना भविष्य के ट्रांजिट मॉडल को चुनने में सहायक हो सकता है।
- **Trams** show a **45% long-term profitability** over their average **life cycle of seven decades**, with additional benefits like **scalability** and **alignment with climate goals**.  
ट्राम लगभग सात दशकों के जीवन चक्र में 45% दीर्घकालिक लाभप्रदता दर्शाती हैं, साथ ही स्केलेबिलिटी और जलवायु लक्ष्यों के अनुरूपता जैसे अतिरिक्त लाभ देती हैं।
- In contrast, **e-buses**, which are currently the **preferred mode** in India, incur **high operational and replacement costs**, resulting in a **net loss of 82%** over the same period.  
इसके विपरीत, ई-बसें, जो वर्तमान में भारत में प्राथमिक विकल्प हैं, की ऑपरेशन और प्रतिस्थापन लागत अधिक होती है, जिससे 82% का शुद्ध घाटा होता है।
- **Trolleybuses**, while moderately efficient, still fall short of trams and show a **minimal loss** over seven decades.  
ट्रॉलीबस, यद्यपि कुछ हद तक कुशल हैं, फिर भी वे ट्राम की तुलना में पीछे रहती हैं और सात दशकों में न्यूनतम घाटा दिखाती हैं।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- This raises an important question — are we investing in the **most sustainable and cost-effective solutions**, or are we heading towards a **future dependent on continuous public subsidies**?

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है — क्या हम सबसे टिकाऊ और लागत-कुशल समाधानों में निवेश कर रहे हैं, या फिर हम लगातार सार्वजनिक सब्सिडी पर निर्भर भविष्य की ओर जा रहे हैं?

- The **planned tram introduction in Kochi** could be a **turning point** in India's urban transport evolution.

कोच्चि में नियोजित ट्राम की शुरुआत भारत के शहरी परिवहन विकास में एक मोड़ हो सकती है।

- Reviving trams is not just **nostalgia**, as seen in **Kolkata**, but a **strategic and timely move** towards a **more sustainable and financially sound urban future**.

ट्रामों को पुनर्जीवित करना केवल कोलकाता जैसी यादगार भावना नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक और समयानुकूल कदम है जो टिकाऊ और आर्थिक रूप से सक्षम शहरी भविष्य की ओर ले जा सकता है।

PATRIOTIC IAS



# Moody's downgrade and U.S. fiscal reality

Moody's downgrade of the U.S. credit rating unfolds without panic, but marks a quiet shift in global fiscal confidence; for India, this moment mirrors deeper fiscal vulnerabilities and calls for urgent reflection, restraint, and financial discipline

**ECONOMIC NOTES**

Deepanshu Mohan

**A**mid the chaos set in by churning events and spurring global uncertainty, there is an interesting financial trend that mainstream analysts are perhaps missing. It is well known in economic history how certain shifts don't arrive with the roar of crisis or the panic of a crash, but with the quiet authority of inevitability – which does have a crisis bearing, a fact that often emerges post the aftermath of a shock.

When Moody's Investors Service finally downgraded the credit rating of the United States on May 16, there was no dramatic nosedive in the markets, no frantic emergency meetings, no calamitous plunge in investor confidence.

Outwardly, the world barely flinched. Yet beneath that projected calm, a silent but monumental shift occurred – one, we argue, may be remembered not for the noise it made, but for silently indicating the end of a long era of unchallenged U.S. fiscal supremacy.

## Foreshadowed for years

What made this moment so striking was not that it happened suddenly, but that it had been forecast in whispers and footnotes of financial discourse for years. For many, this was a long-delayed acknowledgment that the financial world had been indulging in a fiction for far too long.

For most of the post-war period, the U.S. held a rarefied status in the global economy. Its treasury bonds were the closest thing the financial system had to a sacred object, utterly liquid, unfailingly safe, and supported by the full faith and credit of the world's largest and most dynamic economy. This privileged position was not merely a reflection of economic size or military might; it was about trust.

Trust in America's institutions, its political system, its capacity for self-correction, and its willingness, however flawed, to eventually rein in excess.

But the numbers have grown impossible to ignore.

## From discipline to dependence

A national debt that once stood at manageable levels has ballooned into a structural liability, breaching 120% of Gross Domestic Product (GDP), and with U.S. President Donald Trump's latest "Big New Bill," it's showing no signs of retreat. Policymakers now speak about fiscal sustainability in theoretical terms, while pushing actual solutions further down an ever-narrowing road.

This erosion has been gradual but persistent. The post-2008 era ushered in a new norm of emergency spending, first to rescue banks, then to stimulate recovery, and later to shield households from the pandemic's chaos.

Each intervention may have been justified in its own moment, but together they forged a long-term addiction of monetarists to deficit finance.

Unlike the post-World War II generation that slashed debt aggressively through a combination of growth and fiscal discipline, today's political class appears paralysed by polarisation and unable to even pass budgets without the threat of shutdown.


The confidence that also once underpinned U.S. borrowing, rooted as much in political stability as in economic fundamentals, has taken a series of subtle but significant blows, culminating in Moody's reluctant decision to strip away its final vote of unquestioning faith.



**Matter of discussion:** The Indian economy is not immune to global fiscal contractions. GETTY IMAGES

## Quiet warning

The chart shows India's general government gross debt climbing to 80.4% of GDP and household debt rising to 39.16%.



## Global recalibration

But this downgrade, though symbolic, carries implications that ripple far beyond Wall Street. It comes at a time when global financial allegiances are shifting, when the dollar's centrality in international reserves is already under quiet attack, and when major economies are exploring alternatives to a U.S.-centric system.

Central banks that once loaded up on treasuries with near-religious regularity are now hedging with gold. The euro and other digital currencies are not a distant idea. And while the markets have taken this moment in stride, history teaches us that great financial unravelings rarely begin with panic – they begin with a shrug. The cost becomes visible only later.

It is in this context that the Moody's downgrade must be understood, not as a marker of long-building pressure finally piercing the illusion of permanence.

The world has not yet turned away from the dollar, but it has begun to look around. And that moment of looking, that quiet recalibration of confidence, may ultimately prove more consequential than any single rating change.

As the curtain lifts on a new era of fiscal realism, it is worth asking what this development means not just for the U.S., but for countries that have built their own economic strategies around American reliability. The implications for India and the rest of the world are only just beginning to come into focus.

## India's fiscal mirror

For India, this moment is less about what happens in Washington and more about what it reveals back home: about our financial vulnerabilities, habits, and unwillingness to learn until the consequences knock louder and harder in

a crisis like emergency-response mode.

The Indian economy is not immune to global fiscal contractions.

With general government gross debt hovering near 80% of GDP (IMF 2025), our buffers are limited, especially in an environment of rising global interest rates. As U.S. Treasury yields climb to accommodate perceived risk, investors begin to reprice emerging market debt, and India, despite its growth story, remains vulnerable. This isn't just speculation.

We saw it vividly during the 2013 taper tantrum, when capital outflows pummeled the rupee and exposed our dependence on external financing. A similar shift today would pressure the Reserve Bank of India, complicate deficit management, and test India's ability to shield growth without stoking inflation.

## Deeper fiscal malaise

But beyond macro shocks lies a deeper malaise, which is our domestic fiscal culture.

While India dreams big, it continues to drag a ball and chain of fiscal populism. Successive governments have treated pre-election seasons as open tabs of irrational fiscal exuberance, which come with serious budgetary and fiscal health warnings.

The recent Lok Sabha and Vidhan Sabha elections also saw parties tripping over themselves with giveaways, and if Bihar's upcoming polls are anything to go by, we should probably brace for another round of headline-grabbing promises. One suspects the only limit left is creativity.

This fiscal approach comes with compounding ripple effects. High deficits crowd out private investment, distort credit flows, and leave little room for developmental capital. Structural

inefficiencies, such as low tax compliance and judicial delays in insolvency cases, to underperforming logistics and lagging education outcomes, further create friction that slows down our momentum when we most need agility. The result is a disconnect.

Globally, the downgrade of the U.S. credit ratings serves as a mirror and a point of deeper financial, fiscal strategic introspection.

Emerging markets with heavy debt burdens and borrowing positions accompanied by low-growth cycles, like Brazil and South Africa too are already facing rising borrowing costs. Even developed economies, including Germany (debt-to-GDP at 62.5%) and Canada (at 110.8%), now operate under closer scrutiny. The message is clear: credibility is no longer inherited; it must be earned and maintained.

For India, this is surely not a moment to panic, but a moment to pause, reflect, and enact fiscal caution and financial discipline. Not because we are in the line of fire, but because the conditions that brought the fire elsewhere are not unfamiliar. The discipline we often defer cannot be delayed forever.

If fiscal credibility is being repriced globally, India must ask whether it wants to wait for markets to demand change or lead that change on its own terms.

## Caution and prudence for India

Fiscal caution and prudence are no longer virtues for crisis moments, they are the foundation for resilience in this age of the new normal. Caution for India does not mean a widespread adoption of austerity measures; rather, it means there is more clarity needed in strategy, both in the short, medium-and-long term. It means investing not in headlines, but in core economic foundations: job-creating infrastructure, future-ready skills, and systems that outlast election cycles. It means resisting the seduction of easy populism.

Loan waivers and free power may win votes, but they do little to build the trust that both global capital and citizens themselves seek in a modern state. Structural reforms must move beyond committee reports. Trade resilience must be rooted not in slogans but in strategic diversification.

Above all, Indian policymakers need to recognise that in the age of capital mobility, the loss of credibility is rarely noisy, but always consequentially expensive. While the U.S. has reminded the world that prestige is not protection, India should take the hint early. (Deepanshu Mohan is Professor and Dean, O.P. Jindal Global University. Ankur Singh contributed to this column and is a research analyst)

## THE GIST

Moody's downgrade of the U.S. credit rating marks a silent but significant shift, piercing the illusion of fiscal permanence without triggering immediate market panic.

The world begins to look around, as the dollar's centrality faces quiet challenges and global confidence undergoes a subtle recalibration.

For India, this moment is a mirror reflecting its own fiscal vulnerabilities, highlighting the urgent need to resist populism and lead with financial discipline.

## Moody's Downgrade and U.S. Fiscal Reality

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



## मूडीज़ की डाउनग्रेड और अमेरिका की राजकोषीय वास्तविकता

Moody's downgrade of the U.S. credit rating did not cause panic but marked a quiet shift in global fiscal confidence.

अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में मूडीज़ की गिरावट ने घबराहट नहीं फैलाई, लेकिन वैश्विक राजकोषीय विश्वास में एक शांत बदलाव को चिह्नित किया।

- This moment reflects **deeper fiscal vulnerabilities** for India and signals a need for **urgent reflection, restraint, and financial discipline**.  
यह क्षण भारत के लिए गहरी राजकोषीय कमजोरियों को दर्शाता है और तत्काल चिंतन, संयम और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता को इंगित करता है।

### Moody's Ratings

#### मूडीज रेटिंग्स

- **Moody's Ratings** provides **international financial research on bonds issued by commercial and government entities**.
- मूडीज रेटिंग्स वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी बांडों पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय शोध प्रदान करता है।
- **Moody's**, along with **Standard & Poor's** and **Fitch Group**, is considered one of the **Big Three credit rating agencies**.
- मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच ग्रुप के साथ मिलकर तीन प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक माना जाता है।
- It is also included in the **Fortune 500 list of 2021**.
- यह 2021 की फॉर्च्यून 500 सूची में भी शामिल है।
- The company ranks the **creditworthiness of borrowers** using a **standardized ratings scale** which measures **expected investor loss** in the event of **default**.
- कंपनी एक मानकीकृत रेटिंग स्केल का उपयोग करके उधारकर्ताओं की ऋण योग्यता को रैंक करती है, जो डिफॉल्ट की स्थिति में निवेशक के संभावित नुकसान को मापता है।
- **Moody's Ratings** rates **debt securities** in several **bond market segments**.
- मूडीज रेटिंग्स कई बॉन्ड बाजार खंडों में ऋण प्रतिभूतियों की रेटिंग करता है।
- These include **government, municipal and corporate bonds; managed investments** such as **money market funds** and **fixed-income funds; financial institutions** including **banks and non-bank finance companies; and asset classes** in **structured finance**.



- इनमें शामिल हैं सरकारी, नगर निगम और कॉर्पोरेट बॉन्ड; प्रबंधित निवेश, जैसे मनी मार्केट फंड और फिक्स्ड-इनकम फंड; वित्तीय संस्थान, जिनमें बैंक और गैर-बैंक वित्तीय कंपनियां शामिल हैं; और संरचित वित्त में परिसंपत्ति वर्ग।

• In **Moody's Ratings system**, securities are assigned a **rating from Aaa to C**, with **Aaa** being the **highest quality** and **C** the **lowest quality**.

• मूडीज रेटिंग प्रणाली में, प्रतिभूतियों को **Aaa से C तक की रेटिंग** दी जाती है, जिसमें **Aaa** सबसे उच्च गुणवत्ता और **C** सबसे निम्न गुणवत्ता को दर्शाता है।

• **Moody's** was founded by **John Moody** in **1909**, to produce **manuals of statistics** related to **stocks and bonds and bond ratings**.

• मूडीज की स्थापना **1909** में **जॉन मूडी** द्वारा शेयरों और बांडों तथा उनकी रेटिंग से संबंधित सांख्यिकीय मैनुअल तैयार करने के लिए की गई थी।

• In **1975**, the company was identified as a **Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO)** by the **U.S. Securities and Exchange Commission**.

• **1975** में, कंपनी को **यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन** द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय रेटिंग संगठन (**NRSRO**) के रूप में मान्यता दी गई।

• Following several decades of ownership by **Dun & Bradstreet**, **Moody's Investors Service** became a **separate company** in **2000**.

• **डन एंड ब्रैडस्ट्रीट** के कई दशकों के स्वामित्व के बाद, **मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस** **2000** में एक स्वतंत्र कंपनी बन गई।

• **Moody's Corporation** was established as a **holding company**.

• मूडीज कॉर्पोरेशन को एक होल्डिंग कंपनी के रूप में स्थापित किया गया।

• On **6 March 2024**, **Moody's Investors Service** was renamed to **Moody's Ratings**.

• **6 मार्च 2024** को **मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस** का नाम बदलकर **मूडीज रेटिंग्स** कर दिया गया।

## Quiet Shifts, Not Loud Crises

### तेज़ संकट नहीं, बल्कि शांत बदलाव

- Financial history shows that some shifts come with the **authority of inevitability**, not with panic.
- आर्थिक इतिहास दिखाता है कि कुछ बदलाव **अनिवार्यता के अधिकार** के साथ आते हैं, न कि घबराहट के साथ।



- These changes may signal a crisis **only after the shock has passed**.  
ये परिवर्तन अक्सर झटका बीतने के बाद ही संकट का संकेत देते हैं।
- **Moody's downgraded U.S. credit rating on May 16, but markets didn't panic.**  
16 मई को मूडीज़ ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया, लेकिन बाज़ारों में कोई घबराहट नहीं दिखी।
- There were **no emergency meetings or major market crashes**.  
कोई आपातकालीन बैठक या बड़ा बाज़ार संकट नहीं देखा गया।
- **However, a monumental shift occurred quietly — possibly indicating the end of U.S. fiscal supremacy.**  
हालांकि, एक महत्वपूर्ण बदलाव चुपचाप हुआ — जो शायद अमेरिका की राजकोषीय श्रेष्ठता के अंत की ओर इशारा करता है।
- This downgrade was **not sudden** but had been **predicted subtly** in financial discussions for years.  
यह गिरावट अचानक नहीं थी, बल्कि वर्षों से वित्तीय चर्चाओं में धीरे-धीरे अनुमानित थी।
- It marked an **acknowledgement that global finance has indulged in illusion** for too long.  
इसने यह स्वीकार किया कि वैश्विक वित्त ने लंबे समय तक एक भ्रम में काम किया।
- **For decades, U.S. treasury bonds were considered ultra-safe and highly liquid.**  
दशकों तक, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेहद सुरक्षित और तरल माना जाता था।
- **Their value was based on trust in America's institutions and ability to self-correct.**  
उनकी मान्यता अमेरिका की संस्थाओं और आत्म-सुधार की क्षमता में विश्वास पर आधारित थी।
- **But fiscal numbers are now too big to ignore.**  
लेकिन अब राजकोषीय आंकड़े इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।

## From Discipline to Dependence

### अनुशासन से निर्भरता की ओर

- **U.S. national debt has crossed 120% of GDP, with no signs of retreat.**  
अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज अब जीडीपी के 120% से अधिक हो चुका है, और इसमें कमी के कोई संकेत नहीं हैं।
- Policies like **Trump's 'Big New Bill'** are increasing this burden.  
ट्रंप का 'बिग न्यू बिल' जैसी नीतियाँ इस बोझ को और बढ़ा रही हैं।
- Policymakers speak of **fiscal sustainability theoretically**, while **delaying actual action**.  
नीतिनिर्माता राजकोषीय स्थिरता की बात सैद्धांतिक रूप में करते हैं, लेकिन वास्तविक कार्रवाई को टालते रहते हैं।
- After 2008, emergency spending became **the norm** — first for banks, then for households during COVID.  
2008 के बाद, आपातकालीन खर्च सामान्य हो गया — पहले बैंकों के लिए, फिर कोविड के दौरान घरों के लिए।



- This led to a **long-term addiction to deficit financing**.  
इससे घाटे के वित्तपोषण की दीर्घकालिक लत लग गई।
- Unlike the post-WWII leaders, **today's politicians are polarised and unable to act decisively**.  
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के नेताओं के विपरीत, आज के राजनेता विभाजित हैं और निर्णायक कार्रवाई करने में असमर्थ हैं।
- **U.S. borrowing was once backed by confidence in stability** — this has now weakened.  
अमेरिकी उधारी कभी स्थिरता में विश्वास से समर्थित थी — अब यह कमज़ोर हो चुकी है।
- Moody's downgrade is a **symbol of fading global trust** in U.S. fiscal governance.  
मूडीज़ की डाउनग्रेडिंग अमेरिका की राजकोषीय व्यवस्था पर घटते वैश्विक विश्वास का प्रतीक है।
- The downgrade is **symbolic**, but its effects **go beyond Wall Street**.  
यह गिरावट प्रतीकात्मक है, लेकिन इसके प्रभाव वॉल स्ट्रीट से आगे तक जाते हैं।
- It comes as **global financial loyalties are shifting**.  
यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक वित्तीय निष्ठाएं बदल रही हैं।
- The **dollar's dominance** in global reserves is being **quietly challenged**.  
डॉलर का वर्चस्व अब धीरे-धीरे चुनौती दी जा रही है।
- **Central banks are buying gold** instead of just treasuries.  
केंद्रीय बैंक अब केवल ट्रेजरी की बजाय सोना खरीद रहे हैं।
- **Digital currencies and the euro** are gaining traction as **alternatives**.  
डिजिटल मुद्राएं और यूरो को विकल्पों के रूप में मान्यता मिल रही है।
- Markets are calm for now, but **historical collapses rarely begin with panic**.  
फिलहाल बाज़ार शांत हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि बड़े वित्तीय संकट घबराहट से नहीं, बल्कि चुपचाप शुरू होते हैं।
- Moody's downgrade signals **long-term pressure, breaking the illusion of fiscal permanence**.  
मूडीज़ की यह गिरावट राजकोषीय स्थायित्व के भ्रम को तोड़ने वाले दीर्घकालिक दबाव को दर्शाती है।
- The world has not yet **abandoned the dollar**, but it has started to **look for alternatives**.  
दुनिया ने अभी तक डॉलर को नहीं छोड़ा है, लेकिन विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है।
- This **recalibration of confidence** could be more important than any single downgrade.  
यह विश्वास का पुनःमूल्यांकन किसी भी एकल डाउनग्रेड से अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

## Implications for India and the World

### भारत और विश्व के लिए प्रभाव

- A new era of **fiscal realism** is emerging.  
राजकोषीय यथार्थवाद का एक नया युग उभर रहा है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- Countries like **India**, which depend on **American fiscal reliability**, must now **rethink their strategies**.  
भारत जैसे देश, जो अमेरिकी राजकोषीय भरोसे पर निर्भर हैं, अब अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करें।
- This moment calls for **discipline, foresight, and readiness for structural change**.  
यह समय अनुशासन, दूरदृष्टि और संरचनात्मक परिवर्तन के लिए तैयार रहने की मांग करता है।
- If you'd like this analysis converted into a handout, infographic, or short explainer, I can prepare that too.

## India's Fiscal Mirror

### भारत का राजकोषीय दर्पण

- For India, this moment is less about what is happening in **Washington** and more about **what it reflects about India's own financial vulnerabilities, habits, and crisis-driven learning**.  
भारत के लिए यह क्षण वाशिंगटन में क्या हो रहा है, उससे कम और भारत की अपनी **वित्तीय कमजोरियों**, आदतों और संकट-प्रेरित सीख पर ज़्यादा केंद्रित है।
- The **Indian economy** is not immune to global **fiscal contractions**.  
भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक राजकोषीय संकुचन से अछूती नहीं है।
- With **general government gross debt** nearing **80% of GDP** (IMF, 2025), India's **buffers** are limited, especially amid **rising global interest rates**.  
सरकार का **सकल ऋण GDP का लगभग 80%** तक पहुंच चुका है (IMF, 2025), जिससे भारत की **सुरक्षा सीमाएं सीमित** हैं, खासकर **वैश्विक ब्याज दरों के बढ़ने** के दौर में।
- As **U.S. Treasury yields** rise to reflect higher risk, **investors** start repricing **emerging market debt**, making India vulnerable despite its growth story.  
जैसे ही **अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड** जोखिम के कारण बढ़ती है, **निवेशक उभरते बाजारों के ऋण** का मूल्यांकन बदलते हैं, जिससे भारत **कमजोर** बनता है, भले ही उसकी विकास कहानी मजबूत हो।
- This is not just theory; **in the 2013 taper tantrum, capital outflows** battered the **rupee** and exposed India's **reliance on external financing**.  
यह केवल सिद्धांत नहीं है; **2013 के टेपर टैंट्रम** में, **पूंजी बहिर्गमन** ने **रुपये** को कमजोर किया और भारत की **बाहरी वित्त पर निर्भरता** को उजागर किया।
- A similar shift today would strain the **Reserve Bank of India**, complicate **deficit management**, and test India's ability to maintain growth without triggering **inflation**.  
आज ऐसी कोई भी स्थिति **भारतीय रिज़र्व बैंक** पर दबाव डालेगी, **घाटे के प्रबंधन** को जटिल बनाएगी और **मुद्रास्फीति** के बिना विकास बनाए रखने की भारत की क्षमता को परखेगी।

## Deeper Fiscal Malaise

### गहरी राजकोषीय बीमारी



- Beyond macroeconomic shocks, India suffers from a deeper **fiscal culture malaise**.  
व्यापक आर्थिक झटकों से आगे, भारत राजकोषीय संस्कृति की गहरी बीमारी से जूझ रहा है।
- India continues to carry the burden of **fiscal populism while pursuing big dreams**.  
भारत बड़े सपने देखते हुए भी लोकलुभावन राजकोषीय नीतियों का बोझ उठाता है।
- **Pre-election seasons** are treated as a time for **fiscal exuberance**, leading to warnings about **budgetary and fiscal health**.  
चुनाव पूर्व समय को राजकोषीय उत्साह के रूप में देखा जाता है, जिससे बजटीय और राजकोषीय स्वास्थ्य को लेकर चेतावनियाँ आती हैं।
- Recent **Lok Sabha** and **Vidhan Sabha** elections were filled with **giveaways**, and similar promises are expected in **Bihar's** upcoming polls.  
हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उपहार घोषणाओं की भरमार रही, और बिहार के आगामी चुनावों में भी यही दोहराव की उम्मीद है।
- The only limit left seems to be **creativity**.  
ऐसा लगता है कि अब केवल रचनात्मकता ही एकमात्र सीमा बची है।
- Such **fiscal practices** lead to ripple effects: **high deficits crowd out private investment, distort credit flows, and leave little room for developmental capital**.  
इस तरह की राजकोषीय प्रवृत्तियाँ कई प्रभाव छोड़ती हैं: उच्च घाटा निजी निवेश को बाहर करता है, ऋण प्रवाह को बिगाड़ता है और विकास पूंजी के लिए जगह नहीं छोड़ता।
- **Structural inefficiencies like low tax compliance, judicial delays, poor logistics, and lagging education** further slow progress.  
कम टैक्स अनुपालन, न्यायिक देरी, कमज़ोर लॉजिस्टिक्स, और शिक्षा में पिछड़ापन जैसी संरचनात्मक कमजोरियाँ गति को और धीमा करती हैं।
- This creates a **disconnect** when India needs the most **agility**.  
यह विच्छेदन तब होता है जब भारत को सबसे अधिक फुर्ती की आवश्यकता होती है।

## A Global Mirror and the Need for Introspection

### वैश्विक दर्पण और आत्मचिंतन की आवश्यकता

- The U.S. **credit downgrade** acts as a **mirror** for India's own **fiscal strategy**.  
अमेरिका की क्रेडिट डाउनग्रेड भारत की राजकोषीय रणनीति के लिए एक दर्पण की तरह है।
- **Emerging markets** like **Brazil** and **South Africa** with high debt and low growth already face **rising borrowing costs**.  
ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरते बाज़ार, जिन पर उच्च ऋण और कम वृद्धि है, पहले ही बढ़ती उधारी लागत का सामना कर रहे हैं।
- Even **developed economies** like **Germany (62.5%)** and **Canada (110.8%)** now face increased **scrutiny**.  
यहां तक कि जर्मनी (62.5%) और कनाडा (110.8%) जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी अब अधिक जांच के दायरे में हैं।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The message is clear: **credibility** is no longer inherited; it must be **earned** and **maintained**.  
संदेश स्पष्ट है: विश्वसनीयता अब विरासत में नहीं मिलती, इसे कमाना और बनाए रखना पड़ता है।
- **India must use this moment to pause, reflect, and embrace financial discipline — not out of fear, but out of foresight.**  
भारत को इस क्षण का उपयोग रुकने, विचार करने, और वित्तीय अनुशासन अपनाने के लिए करना चाहिए — डर से नहीं, बल्कि दूरदृष्टि से।

## Caution and Prudence for India

### भारत के लिए सतर्कता और विवेक

- **Fiscal caution and prudence** are now foundational for **resilience**, not just tools for crisis.  
अब राजकोषीय सतर्कता और विवेक केवल संकट के उपकरण नहीं, बल्कि लचीलापन की नींव हैं।
- **Caution does not mean austerity, but clarity in short-, medium-, and long-term strategy.**  
सतर्कता का अर्थ कठोरता नहीं, बल्कि रणनीति में स्पष्टता है — चाहे वह अल्पकालिक, मध्यमकालिक, या दीर्घकालिक हो।
- **India must invest in core economic foundations like job-creating infrastructure, future-ready skills, and stable systems.**  
भारत को रोजगार सृजन अवसंरचना, भविष्य के लिए तैयार कौशल, और स्थिर प्रणालियों जैसे मूल आर्थिक आधारों में निवेश करना चाहिए।
- **India must resist populist temptations such as loan waivers and free power**, which may win votes but erode trust.  
भारत को ऋण माफी और मुफ्त बिजली जैसी लोकलुभावन लालचों का विरोध करना चाहिए, जो भले ही वोट दिलाएं, पर विश्वास को कमजोर करते हैं।
- Structural reforms must go beyond **committee reports**, and **trade resilience** must be based on **strategic diversification**, not slogans.  
संरचनात्मक सुधारों को समिति रिपोर्टों से आगे जाना चाहिए, और व्यापार लचीलापन को रणनीतिक विविधीकरण पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल नारों पर।
- Policymakers must realise that in the age of **capital mobility**, loss of **credibility** is often **silent** but always **costly**.  
नीति-निर्माताओं को समझना चाहिए कि पूंजी गतिशीलता के युग में, विश्वसनीयता की हानि अक्सर चुपचाप होती है लेकिन हमेशा महंगी पड़ती है।
- The U.S. has shown that **prestige** is not **protection**. India must act early to preserve its **fiscal reputation**.  
अमेरिका ने दिखाया है कि प्रतिष्ठा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। भारत को अपनी राजकोषीय साख को बनाए रखने के लिए समय रहते कदम उठाने चाहिए।



## TOPICS COVERED (PCS Special)

1. **ThisBook Campaign and Women's Prize for Fiction**  
दिसबुक अभियान और विमेंस प्राइज़ फॉर फिक्शन
2. **Trump Launches \$5 Million 'Gold Card' U.S. Residency Visa Website**  
ट्रंप ने \$5 मिलियन 'गोल्ड कार्ड' अमेरिकी रेजिडेंसी वीजा वेबसाइट लॉन्च की

**Questions and Answers to the previous day's daily quiz:** 1. In 2014, the Baileys Women's Prize for Fiction launched the #ThisBook campaign to find out which books written by women have had the biggest impact on readers. X is one of the books listed. The protagonist of X has the surname of a bird. Name X. **Ans: To Kill a Mockingbird**

2. This influential writer, who has won the Women's Prize for Fiction, published her latest book this year. A TED talk by her on feminism became a worldwide conversation and was published as a book. An essay she wrote about losing her father was also published as a book. Name her. **Ans: Chimamanda Adichie**

## ThisBook Campaign and Women's Prize for Fiction

### दिसबुक अभियान और विमेंस प्राइज़ फॉर फिक्शन

- In 2014, the **Baileys Women's Prize for Fiction** launched the #ThisBook campaign to find out which books written by women had the **biggest impact** on readers.  
2014 में बेलीज़ विमेंस प्राइज़ फॉर फिक्शन ने #दिसबुक अभियान शुरू किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिलाओं द्वारा लिखी गई कौन-सी किताबों का पाठकों पर **सबसे बड़ा प्रभाव** पड़ा।
- One of the books listed in the campaign was "To Kill a Mockingbird", where the **protagonist's surname** is the name of a bird.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



इस अभियान में सूचीबद्ध पुस्तकों में से एक थी “टु किल अ मॉकिंगबर्ड”, जिसमें मुख्य पात्र का उपनाम एक पक्षी के नाम पर है।

**Answer: To Kill a Mockingbird**

**उत्तर: टु किल अ मॉकिंगबर्ड**

- This influential writer, who has won the **Women’s Prize for Fiction**, published her **latest book** this year.  
यह प्रभावशाली लेखिका, जिन्होंने **विमेंस प्राइज़ फॉर फिक्शन** जीता है, ने इस वर्ष अपनी **नई किताब** प्रकाशित की।
- A **TED talk** by her on **feminism** became a **worldwide conversation** and was later published as a **book**.  
उनका **नारीवाद** पर किया गया **TED टॉक** एक **वैश्विक चर्चा** बन गया और बाद में एक **पुस्तक** के रूप में प्रकाशित हुआ।
- An **essay** she wrote about **losing her father** was also published as a **book**.  
उन्होंने अपने **पिता को खोने** के अनुभव पर लिखा गया **निबंध** भी एक **पुस्तक** के रूप में प्रकाशित किया।

**Answer: Chimamanda Adichie**

**उत्तर: चिमामांडा अदीचिए**



## WASHINGTON

# Trump unveils website for \$5 mn 'Gold Card' U.S. residency visa



AFP

PCS

U.S. President Donald Trump launched a website, [TrumpCard.gov](http://TrumpCard.gov), for his \$5 million "Gold Card" visa, offering wealthy foreigners permanent U.S. residency and a path to citizenship. The card aims to attract investors, promising green card privileges and economic benefits amid ongoing immigration debates. AFP

chance for permanent U.S. residency and a path to citizenship.

यह कार्ड धनवान विदेशी नागरिकों को स्थायी अमेरिकी निवास और नागरिकता की राह प्रदान करता है।

- It aims to attract investors, promising green card privileges and economic benefits, amid ongoing immigration debates.

इसका उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना है, जिसमें ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं और आर्थिक लाभ देने का वादा किया गया है, जो कि चल रही आव्रजन बहसों के बीच पेश किया गया है।

## Trump Launches \$5 Million 'Gold Card' U.S. Residency Visa Website

ट्रंप ने \$5 मिलियन  
'गोल्ड कार्ड' अमेरिकी  
रेजीडेंसी वीजा वेबसाइट  
लॉन्च की

- U.S. President Donald Trump launched a website, [TrumpCard.gov](http://TrumpCard.gov), for a \$5 million "Gold Card" visa scheme.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने [TrumpCard.gov](http://TrumpCard.gov) नामक वेबसाइट लॉन्च की, जो कि \$5 मिलियन की "गोल्ड कार्ड" वीजा योजना के लिए है।

- The card offers wealthy foreigners a